

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2632]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2632]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYAN 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3473 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, (1956 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 600 (अ) तारीख 11 मार्च 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 11 मार्च 2013 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 10.850 कि.मी. से 24.100 कि.मी. तक (अम्बाला), का निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि)ए अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन “ दी ट्रिब्यून” चण्डीगढ़ जोन संस्करण दिनांक 01 अप्रैल 2013 “ दैनिक भास्कर” अम्बाला जोन संस्करण में दिनांक 02 अप्रैल 2013 में प्रकाशित किये गये थे;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के अम्बाला, जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के 10.850 कि.मी. से 24.200 कि.मी. तक (अम्बाला) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	अम्बाला	अम्बाला	(1)मानक I हदबस्त नं0 178	2//14/2	निजी	चाही	0-4	0.0101	श्रीमति सुखदेव कौर पत्नी गुरनाम सिंह पुत्र रचन सिंह
				17/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	विकास पुत्र मखन लाल पुत्र देव राज
				17/2	निजी	चाही	1-5	0.0632	राकेश कुमार पुत्र बृजभूषण पुत्र लक्ष्मी चन्द 1/2 भाग, श्रीमति सन्तोष पत्नी राकेश कुमार पुत्र बृजभूषण 1/2 भाग
				17/3	निजी	चाही	0-14	0.0354	हरमेश सिंह-जीत सिंह-रामशरण पुत्रान काका सिंह पुत्र सुलेखी हर तीन समभाग
				23	निजी	चाही	1-18	0.0961	महिन्द्र सिंह-गुरमेल सिंह पुत्रान बच्चन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग
				24/2	निजी	चाही	1-8	0.0708	जसवन्त सिंह पुत्र अच्छर सिंह पुत्र रनिया
				5//3	निजी	चाही	2-2	0.1063	महिन्द्र सिंह-गुरमेल सिंह पुत्रान बच्चन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग
				4	निजी	चाही	3-0	0.1518	जसवन्त सिंह पुत्र अच्छर सिंह पुत्र रनिया
				7	निजी	चाही	2-18	0.1467	
				8	निजी	चाही	2-8	0.1214	श्रीमति सुवीता पत्नी अशोक कुमार पुत्र प्राण नाथ 1/2 भाग, अशोक कुमार पुत्र प्राण नाथ पुत्र विद्या रतन 1/2 भाग
				13/1	निजी	चाही	0-8	0.0202	
				13/2	निजी	चाही	0-17	0.0430	श्रीमति राज खोसला पत्नी इन्द्रजीत सिंह पुत्र किशोरी 1/8 भाग, श्री मीनू पत्नी विकास 1/8 भाग, श्रीमति रीतु पत्नी नवदीप 1/8 भाग, नवदीप पुत्र इन्द्रजीत 1/8 भाग, विकास पुत्र इन्द्रजीत 1/4 भाग, इन्द्रजीत पुत्र किशोरी 1/4 भाग
				14	निजी	चाही	2-18	0.1467	जसवन्त सिंह पुत्र अच्छर सिंह पुत्र रनिया
				18	निजी	चाही	0-18	0.0455	लाभ सिंह-सरवन सिंह-गुरनाम सिंह-हरनेक सिंह पुत्रान जोगिन्द्र सिंह पुत्र सुरमुख सिंह हर चार समभाग
				19	निजी	चाही	1-19	0.0987	श्रीमति राज खोसला पत्नी इन्द्रजीत सिंह पुत्र किशोरी 1/8 भाग, श्री मीनू पत्नी विकास 1/8 भाग, श्रीमति रीतु पत्नी नवदीप 1/8 भाग, नवदीप पुत्र इन्द्रजीत 1/8 भाग, विकास पुत्र इन्द्रजीत 1/4 भाग, इन्द्रजीत पुत्र किशोरी 1/4 भाग
				22	निजी	चाही	1-18	0.0961	
				23	निजी	चाही	3-8	0.0172 0	लाभ सिंह-सरवन सिंह-गुरनाम सिंह-हरनेक सिंह पुत्रान जोगिन्द्र सिंह पुत्र सुरमुख सिंह हर चार समभाग
				9//2	निजी	चाही	1-18	0.0961	नगीना पुत्र नराता पुत्र करतार 1/6 भाग, सुखदेव पुत्र जीत सिंह पुत्र नराता 1/6 भाग, दर्शन पुत्र सुरजीत 1/6 भाग, कृष्ण पुत्र कर्म सिंह पुत्र मगत राम 1/4 भाग,

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									लखबीर सिंह-मलकीत सिंह पुत्रान अग्रेज पुत्र मस्त राम हर दौ समभाग 1/4 भाग
				3	निजी	चाही	2-19	0.01493	लाभ सिंह-सरवन सिंह-गुरनाम सिंह-हरनेक सिंह पुत्रान जोगिन्द्र सिंह पुत्र सुरमुख सिंह हर चार समभाग
				8	निजी	चाही	1-4	0.0607	अजमेर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र दया
				9/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	राम 1/2 भाग, बहादुर सिंह-साहब सिंह-त्रिलोचन सिंह पुत्रान सुच्चा सिंह पुत्र दलीप सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग
				9/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	नगीना पुत्र नराता पुत्र करतार 1/6 भाग, सुखदेव पुत्र जीत सिंह पुत्र नराता 1/6 भाग, दर्शन पुत्र सुरजीत 1/6 भाग, कृष्ण पुत्र कर्म सिंह पुत्र मगत राम 1/4 भाग, लखबीर सिंह-मलकीत सिंह पुत्रान अग्रेज पुत्र मस्त राम हर दौ समभाग 1/4 भाग
				11	निजी	चाही	2-0	0.1012	सुखदेव सिंह पुत्र पुर्ण सिंह पुत्र वीर सिंह 1/2 भाग, श्री तेज कौर माता वा श्रीमति हरमीत कौर विधवा वा तलवीन्द्र सिंह-विरेंद्र सिंह पुत्रान हाकम सिंह पुत्र पुर्ण सिंह हर चार समभाग 1/2 भाग
				12	निजी	चाही	3-3	0.1594	अजमेर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र दया
				19	निजी	चाही	2-0	0.1012	राम 1/2 भाग, बहादुर सिंह-साहब सिंह-त्रिलोचन सिंह पुत्रान सुच्चा सिंह पुत्र दलीप सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग
				20	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति ममता पत्नी नरेश पुत्र रामेश्वर 1/3 भाग, श्रीमति पुजा पत्नी अश्वनी पुत्र कृष्ण लाल 1/9 भाग, श्रीमति नेहा पत्नी विजय कुमार 1/9 भाग, अर्जुन पुत्र पोखर 1/9 भाग, प्रीतमहिन्द्र सिंह-गुरसेवक पुत्रान तेजप्रकाश हर दौ समभाग 1/3 भाग
				21	निजी	चाही	2-0	0.1012	सुभाष पुत्र नेम दास पुत्र जगत मल 731/1231 भाग, अजय कुमार-संजय कुमार पुत्रान सुभाष चन्द पुत्र नेम दास हर दौ समभाग 250/1231 भाग, श्रीमती सुमन पत्नी सुभाष चन्द पुत्र नेम दास 250/1231 भाग
				22	निजी	चाही	2-0	0.1012	अजमेर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र दया राम 1/2 भाग, बहादुर सिंह-साहब सिंह-त्रिलोचन सिंह पुत्रान सुच्चा सिंह पुत्र दलीप सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग
				10//1/1	निजी	चाही	1-3	0.0582	अजय कुमार पुत्र सुभाष चन्द पुत्र नेम दास
				1/2	निजी	चाही	1-1	0.0531	कमलापत पुत्र नेमदास पुत्र जगत मल 341/1230 भाग, श्रीमती रविन्द्र पत्नी कमलापत 623/1230 भाग, श्री वंदना पत्नी अमन पुत्र कमलापत 133/1230

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									भाग, अमन पुत्र कमलापत 133/1230 भाग
				1/3	निजी	चाही	1-4	0.0607	अजमेर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र दया राम 1/2 भाग, बहादुर सिंह-साहब सिंह-त्रिलोचन सिंह पुत्रान सुच्चा सिंह पुत्र दलीप सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग
				1/4	निजी	चाही	1-7	0.0683	गुरदयाल सिंह पुत्र सावन पुत्र किशना 1/3 भाग, अग्नेज सिंह-गुरमेज सिंह पुत्रान गुरदयाल सिंह पुत्र सावन हर समभाग 2/3 भाग
				2/1	निजी	चाही	0-9	0.0228	अजमेर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र दया राम 1/2 भाग, बहादुर सिंह-साहब सिंह-त्रिलोचन सिंह पुत्रान सुच्चा सिंह पुत्र दलीप सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग
				10/1	निजी	चाही	3-0	0.1518	गुरदयाल सिंह पुत्र सावन पुत्र किशना 1/3 भाग, अग्नेज सिंह-गुरमेज सिंह पुत्रान गुरदयाल सिंह पुत्र सावन हर समभाग 2/3 भाग
				10/2	निजी	चाही	0-7	0.0177	कमलापत पुत्र नेमदास पुत्र जगत मल 341/1230 भाग, श्रीमती रविन्द्र पत्नी कमलापत 623/1230 भाग, श्री वंदना पत्नी अमन पुत्र कमलापत 133/1230 भाग, अमन पुत्र कमलापत 133/1230 भाग
				11	निजी	चाही	2-16	0.1417	गुरदयाल सिंह पुत्र सावन पुत्र किशना 1/3 भाग, अग्नेज सिंह-गुरमेज सिंह पुत्रान गुरदयाल सिंह पुत्र सावन हर समभाग 2/3 भाग
				10//20/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	
				20/2	निजी	चाही	1-11	0.0784	कमलजीत सिंह-विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग 1/3 भाग, श्रीमती परमजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह 1/3 भाग, श्रीमती शीला पत्नी अश्वनी 7/60 भाग, श्रीमती ममता पत्नी नरेश कुमार पुत्र रामेश्वर दत्त 1/12 भाग, श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी तेजप्रकाश पुत्र दाता सिंह, श्रीमती सर्वणजीत कौर पत्नी हरदयाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह 1/20 भाग
				21/1	निजी	चाही	0-0.25	0.0006	
				11//5/2	निजी	चाही	0-4	0.0101	कमलापत पुत्र नेमदास पुत्र जगत मल 341/1230 भाग, श्रीमती रविन्द्र पत्नी कमलापत 623/1230 भाग, श्री वंदना पत्नी अमन पुत्र कमलापत 133/1230 भाग, अमन पुत्र कमलापत 133/1230 भाग
				6	निजी	चाही	1-7	0.0683	
				15/1	निजी	चाही	1-1	0.0531	सुभाष पुत्र नेम दास पुत्र जगत मल 731/1231 भाग, अजय कुमार-संजय कुमार पुत्रान सुभाष चन्द पुत्र नेम दास हर दौ समभाग 250/1231 भाग, श्रीमती

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टेयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सुमन पत्नी सुभाष चन्द पुत्र नेम दास 250/1231 भाग
				15/2	निजी	चाही	1-5	0.0632	रजिन्द्र कुमार पुत्र नेम दास 7/16 भाग, विकास-मनीष पुत्रान रजिन्द्र कुमार पुत्र नेम दास 19/88 भाग, कुशम पत्नी रजिन्द्र कुमार पुत्र नेम दास 61/176 भाग,
				16/1	निजी	चाही	1-1	0.0531	कमलजीत सिंह-विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग 1/3 भाग, श्रीमती परमजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह 1/3 भाग, श्रीमती शीला पत्नी अश्वनी 7/60 भाग, श्रीमती ममता पत्नी नरेश कुमार पुत्र रामेश्वर दत्त 1/12 भाग, श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी तेजप्रकाश पुत्र दाता सिंह, श्रीमती सर्वणजीत कौर पत्नी हरदयाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह 1/20 भाग
				25/1	निजी	चाही	2-8	0.1214	कमलजीत सिंह-विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग
				25/2	निजी	चाही	0-16	0.0405	नरमैल सिंह-हरमेश पुत्रान पृथ्वी सिंह पुत्र बख्शी राम हरदौ समभाग
				24	निजी	चाही	2-4	0.01113	बलजीन्द्र सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र बख्शी राम
				15//4/1	निजी	चाही	1-5	0.0632	कमलजीत सिंह-विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग
				4/2	निजी	चाही	1-5	0.0632	बलजीन्द्र सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र बख्शी राम
				5	निजी	चाही	2-0	0.1012	गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग
				6	निजी	चाही	2-16	0.1417	बलजीन्द्र सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र बख्शी राम
				7	निजी	चाही	2-10	0.1265	कमलजीत सिंह-विक्रमजीत सिंह पुत्रान गुरनाम सिंह पुत्र करनैल सिंह हर दौ समभाग
				14/1	निजी	चाही	0-16	0.0405	बलजीन्द्र सिंह पुत्र हरदित सिंह पुत्र बख्शी राम
				14/2	निजी	चाही	0-15	0.0379	दिलबाग सिंह-कपतान सिंह पुत्रान जसपाल सिंह पुत्र बखतावर सिंह हर दौ समभाग 1/2 भाग, हरबस सिंह पुत्र सुरमुख सिंह पुत्र बज्जु राम 169/674 भाग, बलजिन्द्र सिंह पुत्र. हरदित सिंह पुत्र बख्शी राम 160/674 भाग, उजागर सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र श्रीमती श्री कौर 8/674 भाग
				15	निजी	चाही	2-4	0.1113	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
			(2) हमायु पुर हदबस्त नं0 179	3//14	निजी	चाही	0-6	0.0152	सुरूप सिंह पुत्र बुध राम पुत्र माता बख्शी
				17/2	निजी	चाही	1-12	0.0810	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				18/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	सुरूप सिंह पुत्र बुध राम पुत्र माता बख्शी
				17/1	निजी	चाही	1-9	0.0734	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				23/1	निजी	चाही	0-7	0.0177	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				23/2	निजी	चाही	1-10	0.0759	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				24	निजी	चाही	1-3	0.0582	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				26	निजी	चाही	1-3	0.0582	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				12//3	निजी	चाही	1-17	0.0936	सुखीर सिंह-जसबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र हसराम हर दौ समभाग
				7	निजी	चाही	2-12	0.1316	हसराम पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				8	निजी	चाही	2-1	0.1037	बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र सरूपा
				12/1	निजी	चाही	0-16	0.0405	144/1431 भाग, श्रीमती मीना कुमारी पत्नी वरिन्द्र कुमार पुत्र विशु 287/2155 भाग, श्रीमती सर्वणजीत कौर पत्नी हरदयाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह 574/2155 भाग, श्रीमती निलम पत्नी विजय कुमार 574/2155 भाग
				12/2	निजी	चाही	1-11	0.0784	अमर सिंह पुत्र सरूपा पुत्र हमेला
				19/1	निजी	चाही	3-3	0.1594	126/2521 भाग, हरि सिंह पुत्र सरूपा
				22/2/1	निजी	चाही	0-16	0.0405	409/2521 भाग, जगा सिंह पुत्र सरूपा
				22/2/3	निजी	चाही	0-12	0.0304	67/2521 भाग, अग्रेजो देवी पुत्री मेहर सिंह 33/2521 भाग, बलकार सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र हमेला 221/2521 भाग, जगतार सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र हमेला 138/2521 भाग, बलजिन्द्र सिंह पुत्र हरदित सिंह 82/2521 भाग, बहादुर सिंह पुत्र अमर सिंह 136/2521 भाग, सतपाल सिंह पुत्र अमर सिंह 105/2521 भाग, गुरपाल सिंह पुत्र अमर सिंह 137/2521 भाग, श्रीमती चरणकौर पुत्री सरूपा 125/2521 भाग, सुरजीत सिंह पुत्र हरि सिंह 21/2521 भाग, अमरीक सिंह पुत्र हरि सिंह 21/2521 भाग, जसविन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह 21/2521 भाग, जसविन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन 14/2521 भाग, दलवीर सिंह पुत्र जगतार सिंह पुत्र रामकिशन 337/2521 भाग, दलविन्द्र सिंह—मन्दिर सिंह पुत्रान गुरमीत सिंह 276/2521 भाग जगतार सिंह पुत्र रामकिशन 92/2521 भाग, भाग सिंह—जसराम सिंह—नरमैल सिंह पुत्रान जीत सिंह पुत्र साधु 33/2521 भाग
				13	निजी	चाही	2-10	0.1265	हसरज पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				18	निजी	चाही	2-8	0.1214	हसरज पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				23/1	निजी	चाही	1-4	0.0607	हसरज पुत्र जगीर सिंह पुत्र नराता
				23/2/1	सरकारी	गैरमुम्किन	0-1	0.0025	हरियाणा सरकार
				23/3	निजी	चाही	0-1	0.0025	बलवीर सिंह पुत्र रामकिशन पुत्र नानक
				17//2/1	सरकारी	गैरमुम्किन	0-2	0.0051	हरियाणा सरकार
				2/2	निजी	चाही	2-5	0.1138	मनमोहन सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र बारू
				3/1	निजी	चाही	1-11	0.0784	श्रीमती अनुराधा पत्नी सतपाल पुत्र हरि चन्द 131/154 भाग, श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी चेतन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह 23/154 भाग,
				3/2	सरकारी	गैरमुम्किन	0-13	0.0329	हरियाणा सरकार
				3/3	निजी	चाही	0-3	0.0076	जयसिंह पुत्र रामकिशन पुत्र नानक
				9/1	निजी	चाही	0-19	0.0481	श्रीमती अनुराधा पत्नी सतपाल पुत्र हरि

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									चन्द 131/154 भाग, श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी चेतन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह 23/154 भाग,
				9/2	निजी	चाही	1-5	0.0632	श्याम सिंह पुत्र रामकिशन पुत्र नानक
				10	निजी	चाही	2-8	0.1214	सतबीर सिंह-गुरप्रीत सिंह पुत्रान मनमोहन सिंह पुत्र दलीप सिंह हर दौ समभाग
				11	निजी	चाही	2-4	0.1113	सुखबीर सिंह-जसबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र हसराज हर दौ समभाग
				12/1	निजी	चाही	1-17	0.0936	श्याम सिंह पुत्र रामकिशन पुत्र नानक
				19/1	निजी	चाही	0-11	0.0278	बलकार सिंह-जसबीर सिंह-रछपाल सिंह पुत्रान वा श्रीमती जय कौर विधवा रघुवीर सिंह पुत्र रामकिशन हर चार समभाग
				19/2	निजी	चाही	1-12	0.0810	जगतार सिंह-अवतार सिंह-जसविन्द्र सिंह पुत्रान रामकिशन पुत्र साधु हर तीन समभाग
				22	निजी	चाही	2-8	0.1214	
			(3) मटेडी शेखां हदबस्त नं0 256	29//13/1	निजी	चाही	1-10	0.0759	गुरजीत सिंह-नरेश कुमार पुत्रान राम नाथ पुत्र लाल सिंह हर दौ समभाग
				13/2	निजी	चाही	1-10	0.0759	पुनीत सिंह दत्तक पुत्र हरि सिंह पुत्र मुन्शी 1/3 भाग, गगनदीप सिंह पुत्र जगिन्द्र सिंह 1/3 भाग, ओम प्रकाश पुत्र बुटा राम 1/3 भाग
				13/3	निजी	चाही	0-9	0.0228	हरियाणा बर्क बोर्ड बखानाकाशत ईशर सिंह पुत्र हरि सिंह पुत्र दौला सिंह 1/2 भाग, अमीर चन्द पुत्र हीरा नन्द 1/2 भाग गैरमौरूसियान
				14/1	निजी	चाही	0-1	0.0025	
				18	निजी	चाही	0-4	0.0101	हरियाणा बर्क बोर्ड बखानाकाशत वेदप्रकाश पुत्र ईशर सिंह 1/2 भाग, गुरचरण सिंह पुत्र जगिन्द्र सिंह 1/2 भाग गैरमौरूसियान
			(4) लडयाली हदबस्त नं0 264	1438/336	निजी	चाही	0-11	0.0278	सुरजीत सिंह-नरेश कुमार पुत्रान रामनाथ पुत्र लाल सिंह हर दौ समभाग
				337	निजी	चाही	0-11	0.0278	
				339	निजी	चाही	0-17	0.0430	साहब सिंह-रण सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह पुत्र बीरु हर दौ समभाग 9/10 भाग,
				340	निजी	चाही	0-16	0.0405	श्रीमती साबो-जीतो-गुरमीत कौर पुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र बीरु हर तीन समभाग 1/10 भाग
				341	निजी	चाही	0-16	0.0405	
				350	निजी	चाही	1-16	0.0906	
				352	निजी	चाही	0-19	0.0481	साहब सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बीरु 1101/3780 भाग, श्रीमती साबो-जीतो-गुरमीत कौर पुत्रीयान प्रीतम

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सिंह पुत्र बीरू हर तीन समभाग 1/2 भाग, रण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र बीरू 1701/3780
				353	निजी	चाही	0-18	0.0455	साहब सिंह-रण सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह पुत्र बीरू हर दौ समभाग 9/10 भाग, श्रीमती साबो-जीतो-गुरमीत कौर पुत्रीयान प्रीतम सिंह पुत्र बीरू हर तीन समभाग 1/10 भाग
				362	निजी	चाही	0-18	0.0455	कर्म सिंह-प्रेम सिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र कपूरा राम हर दौ समभाग
				363	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				365	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				366	निजी	चाही	1-0	0.0506	
				367	निजी	चाही	1-6	0.0658	पाल सिंह पुत्र गन्धा सिंह पुत्र बारू 1/5 भाग, दिलप्रीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह 1/100 भाग, लवप्रीत सिंह-जसप्रीत सिंह पुत्रान वा श्रीमती गुरमीत कौर विधवा सतिन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/20 भाग, सुख देव सिंह पुत्र पुर्ण सिंह पुत्र बीर सिंह 111/300 भाग, श्रीमती हरमीत कौर विधवा वा तलविन्द्र सिंह-वरिन्द्र सिंह पुत्रान हाकम सिंह पुत्र पुर्ण सिंह हर तीन समभाग 111/300
				368	निजी	चाही	0-19	0.0481	कर्म सिंह-प्रेम सिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र कपूरा राम हर दौ समभाग
				375	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				376	निजी	चाही	0-18	0.0455	सुखदेव सिंह-करनैल सिंह पुत्रान बच्चन सिंह पुत्र पुर्ण सिंह हर दौ समभाग
				377	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				379	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				380	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				381	निजी	चाही	0-18	0.0455	
				1439/382	सरकारी	गैरमुम्किन	0-2	0.0051	हरियाणा सरकार
				1440/382	निजी	चाही	0-18	0.0455	सुखदेव सिंह-करनैल सिंह पुत्रान बच्चन सिंह पुत्र पुर्ण सिंह हर दौ समभाग
				425	निजी	चाही	0-18	0.0455	रोनकी पुत्र करतार सिंह पुत्र बीरू
				1746/426	निजी	चाही	1-0	0.0506	
				443	पंचायत	चाही	0-15	0.0379	पंचायत देह
			(5) सखराओ हदबस्त नं० 265	7//19	निजी	चाही	0-11	0.0278	गरजा राम उर्फ गरजा-ज्यौती राम उर्फ ज्यौती-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग
				22/1	निजी	चाही	0-0.25	0.0006	गरजा राम -ज्यौती राम-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्हा राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह
				22/2	निजी	चाही	2-10	0.1265	
				9//1	निजी	चाही	1-1	0.0531	
				2/1	निजी	चाही	0-18	0.0455	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									हर सात समभाग 1/4 भाग,
				2/2	निजी	चाही	2-4	0.1113	गरजा राम उर्फ गरजा-ज्यौती राम उर्फ ज्यौती-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग
				9/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				9/2	निजी	निजी	0-4	0.0101	गरजा राम-ज्यौती राम-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्था राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह हर सात समभाग 1/4 भाग,
				10	निजी	चाही	1-14	0.0860	
				11	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				12	निजी	चाही	2-4	0.1113	गरजा राम उर्फ गरजा-ज्यौती राम उर्फ ज्यौती-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग
				19	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				20	निजी	चाही	2-0	0.1012	गरजा राम-ज्यौती राम-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्था राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह हर सात समभाग 1/4 भाग,
				21	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				22	निजी	चाही	2-0	0.1012	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्द्र सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्द्र सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्द्र कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				18//1/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	गरजा राम-ज्यौती-गरीब दास पुत्रान जीवन राम पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्था राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									हर सात समभाग 1/4 भाग,
				1/2	निजी	चाही	0-2	0.0051	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्दु सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्दु सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्दु कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				2	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				9	निजी	चाही	1-8	0.0708	
				10/1	निजी	चाही	0-16	0.0405	
				10/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	गरजा राम-ज्यौती राम-गरीब दास पुत्रान वा श्रीमती परवार कौर पुत्री जीवन राम पुत्र मंगल हर चार समभाग 4/5 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्था राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह हर सात समभाग 1/5 भाग,
				12	निजी	चाही	0-12	0.0304	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्दु सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्दु सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्दु कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि
				19	निजी	चाही	0-1	0.0025	
				20/1	निजी	चाही	2-5	0.1138	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				20/2	निजी	चाही	2-12	0.0810	गरजा राम-ज्यौती राम-गरीब दास पुत्रान वा श्रीमती परवार कौर पुत्री जीवन राम पुत्र मंगल हर चार समभाग 4/5 भाग, श्रीमती चमेली देवी विधवा वा नन्हा राम-मिहां सिंह-निरमल सिंह-गुरमीत सिंह-सिहां सिंह-हरमेश सिंह पुत्रान सूरजा राम पुत्र जीवन सिंह हर सात समभाग 1/5 भाग,
				21/1	निजी	चाही	1-16	0.0911	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्द सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्द सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्द कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				21/2	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				25	निजी	चाही	0-6	0.0152	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्द सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्द सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर
				20//5	निजी	चाही	1-0	0.0506	
				6	निजी	चाही	1-8	0.0708	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्द्र कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				15	निजी	गैरमुम्किन	2-0	0.1012	ओम प्रकाश पुत्र बूटा राम पुत्र जय राम 1/3 भाग, गगनदीप सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र बूटा सिंह 1/3 भाग, पुनीत सिंह दत्तक पुत्र हरी सिंह पुत्र मुंशी 1/3 भाग
				16	निजी	गैरमुम्किन	0-18	0.0455	ओम प्रकाश पुत्र बूटा राम पुत्र जय राम 535/1608 भाग, गगनदीप सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र बूटा सिंह 535/1608 भाग, पुनीत सिंह दत्तक पुत्र हरी सिंह पुत्र मुंशी 269/804 भाग
				25	निजी	गैरमुम्किन	2-0	0.1012	
				26	निजी	चाही	1-2	0.0557	
				21//1/1	निजी	चाही	1-0	0.0506	गुरदेव सिंह-बलदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र पुन्नु हर दौ समभाग 653/4089 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नु राम 1306/12267 भाग, बहादुर सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सरधा राम 1306/12267 भाग, बिन्द्र सिंह पुत्र सरधा राम पुत्र पुन्नुराम 1307/12267 भाग, श्रीमती गुरदेवी माता वा श्रीमती मन्जीत कौर विधवा वा दिलबाग सिंह-सतबीर सिंह पुत्रान जगतार सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हर चार समभाग 478/4089 भाग, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह 478/4089 भाग, जसबिन्द्र सिंह-निर्मल सिंह-अमरीक सिंह पुत्रान बलदेव सिंह हर तीन समभाग 956/4089 भाग, श्रीमती राज कौर विधवा वा महिन्द्र कौर-सिन्द्र कौर पुत्रीयान वा चेतन सिंह-धन्ना सिंह-हाकम सिंह-अवतार सिंह पुत्रान हरि चन्द पुत्र रामदिया हर सात समभाग 4571/98136 भाग, श्रीमती जरनैल कौर विधवा वा श्रीमति सलोनिया पुत्री वा गुरतेज सिंह पुत्र बलकार सिंह पुत्र हरि चन्द हर तीन समभाग 653/98136 भाग,
				1/2	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				10/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				10/2	निजी	चाही	0-5	0.0126	
				11	निजी	चाही	1-1	0.0531	
				20	निजी	चाही	2-4	0.1113	दीदार सिंह-गजन सिंह-गुरतेज सिंह-गुरपाल सिंह पुत्रान माडा सिंह पुत्र बसंत सिंह हर चार समभाग
				21	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				30//1	निजी	चाही	2-4	0.1113	प्रीतम सिंह-सुरमुख सिंह-नसीब सिंह पुत्रान पुर्ण सिंह पुत्र महताब सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्यारा सिंह-भूपिन्द्र सिंह पुत्रान तेजा सिंह पुत्र अजमेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				10/1	निजी	चाही	0-5	0.0126	सरवन उर्फ सरवन सिंह-चरणा उर्फ चरण सिंह-केसर उर्फ केसर सिंह पुत्रान जयमाल सिंह पुत्र हुसयार सिंह हर तीन समभाग
				10/2	सरकारी	गैरमुम्किन	0-11	0.0278	हरियाणा सरकार
				10/3	निजी	चाही	1-6	0.0658	सरवन उर्फ सरवन सिंह-चरणा उर्फ चरण सिंह-केसर उर्फ केसर सिंह पुत्रान जयमाल सिंह पुत्र हुसयार सिंह हर तीन समभाग
				11	निजी	चाही	0-18	0.0455	गुरनेब सिंह-बहादुर सिंह-लाभ सिंह-कवलजीत सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र ज्वाला सिंह हर चार समभाग
				20	निजी	चाही	0-3	0.0076	
				31//5/1	निजी	गैरमुम्किन	2-1	0.1037	ओम प्रकाश पुत्र बूटा राम पुत्र जय राम 1/3 भाग, गगनदीप सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र बूटा सिंह 1/3 भाग, पुनीत सिंह दत्तक पुत्र हरी सिंह पुत्र मुंशी 1/3 भाग
				5/2	निजी	चाही	0-3	0.0076	प्रीतम सिंह-सुरमुख सिंह-नसीब सिंह पुत्रान पुर्ण सिंह पुत्र महताब सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्यारा सिंह-भूपिन्द्र सिंह पुत्रान तेजा सिंह पुत्र अजमेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, दर 2 भाग हरियाणा सरकार 12 भाग
				6/2/2	निजी	चाही	1-0	0.0506	बहादुर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र ज्वाला सिंह
				15/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				15/2	निजी	चाही	1-12	0.0810	गुरनेब सिंह-बहादुर सिंह-लाभ सिंह-कवलजीत सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र ज्वाला सिंह हर चार समभाग
				16/1	निजी	चाही	2-8	0.1214	
				25/1	निजी	चाही	1-10	0.0759	प्रीतम सिंह-सुरमुख सिंह-नसीब सिंह पुत्रान पुर्ण सिंह पुत्र महताब सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्यारा सिंह-भूपिन्द्र सिंह पुत्रान तेजा सिंह पुत्र अजमेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, दर 2 भाग हरियाणा सरकार 12 भाग
				25/2	निजी	चाही	0-5	0.0126	बहादुर सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र ज्वाला सिंह
				25/3	निजी	चाही	2-4	0.1113	गुरनेब सिंह-बहादुर सिंह-लाभ सिंह-कवलजीत सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र ज्वाला सिंह हर चार समभाग
				32//4/1	निजी	चाही	0-1	0.0025	गोपाल चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम 1/2 भाग, श्रीमती शांती देवी पुत्री लाल चन्द पुत्र आशा राम 1/4 भाग, श्रीमती सुदेश विधवा वा श्रीमती सिपरा पुत्री सुर्देश कुमार हर दौ समभाग 1/4 भाग,
				4/2	निजी	चाही	0-3	0.0076	अमीर चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्देश कुमार गैरमोरुसी
				4/3	निजी	चाही	0-3	0.0076	ठाकुर दास पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				4/4	निजी	चाही	0-12	0.0304	अत्तर चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				4/5	निजी	चाही	0-5	0.0126	दोलत राम पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम
				5/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				5/2	निजी	चाही	0-3	0.0076	अत्तर चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				5/3	निजी	चाही	0-3	0.0076	ठाकुर दास पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				5/4	निजी	चाही	0-6	0.0152	अमीर चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम बखानाकास्त श्रीमती सुदेश विधवा सुर्दशन कुमार गैरमोरुसी
				5/5	निजी	चाही	0-4	0.0101	गोपाल चन्द पुत्र सेवा राम पुत्र कन्हा राम 1/2 भाग, श्रीमती शांती देवी पुत्री लाल चन्द पुत्र आशा राम 1/4 भाग, श्रीमती सुदेश विधवा वा श्रीमती सिपरा पुत्री सुर्दशन कुमार हर दौ समभाग 1/4 भाग,
				5/6	निजी	चाही	2-4	0.1113	जरनैल सिंह—लाभ सिंह पुत्रान जगीर सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह हर दौ समभाग 1/6 भाग, तलविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र जगीर सिंह 1/3 भाग, इकबाल सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र जगीर सिंह 1/4 भाग, श्रीमती परमजीत कौर विधवा वा गुरजन्त सिंह पुत्र वा श्रीमती अमरजीत कौर पुत्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह हर तीन समभाग 1/12 भाग, अवतार सिंह—हाकम सिंह पुत्रान जरनैल सिंह पुत्र जगीर सिंह हर दौ समभाग 1/6 भाग
				6/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				6/2	निजी	चाही	0-3	0.0076	प्रीतम सिंह—सुरमुख सिंह—नसीब सिंह पुत्रान पुर्ण सिंह पुत्र महताब सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्यारा सिंह—भूपिन्द्र सिंह पुत्रान तेजा सिंह पुत्र अजमेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, दर 2 भाग हरियाणा सरकार 12 भाग
				7	निजी	चाही	1-12	0.0810	
				14	निजी	चाही	2-0	0.1012	प्यारा सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
				15	निजी	चाही	2-4	0.1113	जरनैल सिंह—लाभ सिंह पुत्रान जगीर सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह हर दौ समभाग 2/3 भाग, तलविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र जगीर सिंह 1/3 भाग,
				16	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				17/1	निजी	चाही	1-18	0.0961	मिनाक्षी पुत्री राणाप्रताप पुत्र विपिन कुमार
				24	निजी	चाही	2-0	0.1012	सुमन कुमार पुत्र राणा प्रताप पुत्र कुन्दन लाल 1/2 भाग, रोहित कुमार पुत्र चन्द्रशेखर पुत्र रणजीत राम 1/2 भाग
				25	निजी	चाही	2-4	0.1113	जरनैल सिंह—लाभ सिंह पुत्रान जगीर सिंह

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				45//4/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	पुत्र सम्पूर्ण सिंह हर दौ समभाग 2/3 भाग, तलविन्द सिंह पुत्र गुरमेल सिंह पुत्र जगीर सिंह 1/3 भाग,
				4/2	निजी	चाही	0-2	0.0051	
				5	निजी	चाही	2-2	0.1063	
				6	निजी	चाही	1-3	0.0582	
				7/1	निजी	चाही	0-13	0.0329	
				7/2	निजी	चाही	1-10	0.0759	
			(6) नगल हदबस्त नं0 280	3//7/2	निजी	चाही	0-9	0.0228	दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 1/2 भाग, नरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 1/2 भाग
				7/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	ईश्वर दास पुत्र गुलाब चन्द पुत्र ज्वाला सिंह बाखानाकास्त तारु पुत्र रूलिया पुत्र टिडा गैरमौरूसी
				14/2	निजी	चाही	1-3	0.0582	दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 1/2 भाग, नरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 1/2 भाग
				14/3	निजी	चाही	1-17	0.0936	श्रीमती माया विधवा वा श्रीमती कृष्णावन्ती-करतारवन्ती पुत्रीयान हरी सिंह हर तीन समभाग 59/315 भाग, श्रीमती कमलेश-सुदेश-सुषमा-साधना-रजनी पुत्रीयान वा श्रीमती विद्यावन्ती विधवा हसराम पुत्र हरी सिंह हर छः समभाग 15/315 भाग, दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 127/315 भाग, सतीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 114/315 भाग
				15/1	निजी	चाही	0-9	0.0228	
				17/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 1/2 भाग, सतीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 1/2 भाग
				17/2	निजी	चाही	1-14	0.0860	ओमप्रकाश पुत्र बूटा राम पुत्र जयराम वा गगनदीप सिंह पुत्र जोगिन्द्र पुत्र बूटा राम वा प्रीतम सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र मुंशी राम हर तीन समभाग
				18	निजी	चाही	0-12	0.0304	
				23	निजी	चाही	2-0	0.1012	गुरजीन्द्र सिंह पुत्र धर्मजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह
				24	निजी	चाही	2-4	0.1113	दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 1/2 भाग, सतीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 1/2 भाग
				9//3	निजी	चाही	1-17	0.0936	हुकम देवी 1/4 भाग, पुत्री वा श्रीमती शिमलादेवी-कमलेश कुमारी पुत्रीयान श्रीमती भगवान देवी विधवा तारा चन्द हर दौ समभाग 3/4 भाग
				4	निजी	चाही	2-0	0.1012	दर्शन लाल पुत्र रामलुभाया पुत्र देवी दयाल 1/2 भाग, सतीश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र रामलुभाया 1/2 भाग
				7/1	निजी	चाही	1-9	0.0734	
				7/2	निजी	चाही	0-15	0.0379	साधुराम पुत्र पुर्ण पुत्र मातु
				13/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमती कल्पना पत्नी रजिन्द्र पुत्र हरी सिंह 3/68 भाग वरुण पुत्र फूल चन्द पुत्र शंकर दास 65/68 भाग,

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				13/2	निजी	चाही	1-8	0.0708	सुभीनाथ-नाथुराम-कर्म सिंह-बलजीत
				14	निजी	चाही	0-16	0.0405	राम पुत्रान साधु पुत्र पुर्ण चन्द हर चार समभाग
				18/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	साधुराम पुत्र पुर्ण पुत्र मातु
				18/2	निजी	चाही	1-15	0.0860	शांतीदेवी पत्नी हसराज पुत्र दोलत राम
				19	निजी	चाही	0-8	0.0202	
				22	निजी	चाही	1-11	0.0784	श्रीमती नीलम रानी पत्नी मनोज कुमार
				23/1	निजी	चाही	0-9	0.0228	1/9 भाग, मनोज कुमार पुत्र ज्ञान चन्द 1/9 भाग, वासुदेव पुत्र बाबू राम 1/9 भाग, करनैल सिंह पुत्र हजाराम सिंह पुत्र रामकिशन 1/3 भाग, विभोर पुत्र रजिन्द्र कुमार 1/3 भाग, दर 505/1287 भाग श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी पृथ्वीराज पुत्र साहीबदिता 782/1287 भाग
				23/2	निजी	चाही	2-4	0.1113	बलदेव राज पुत्र तीर्थराम पुत्र रामलाल 1/2 भाग, मुनाल पुत्र देवराज पुत्र तीर्थ राम 1/2 भाग,
				17//2	निजी	चाही	2-0	0.1012	अमर सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
				3	निजी	चाही	2-0	0.1012	तेजिन्द्र-मोहन सिंह लिबराहन-संजीव मोहन सिंह लिबराहन पुत्रान लाल गणेश मल हर दौ समभाग
				8/1	निजी	चाही	1-6	0.0658	साहाब सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र नरायण सिंह 1/6 भाग, बहादुर सिंह-मनप्रीत-मनदीप सिंह पुत्रान अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह 5/24 भाग, सुदेश कुमारी विधवा वा रोजी-मोनिका पुत्रीयान जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग, श्रीमती निशा गुप्ता पुत्री राजेश्वर प्रसाद 1/18 भाग, जोगिन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह 1/18 भाग, श्रीमती किरणबाला पुत्री रामधन 1/18 भाग, सुरिन्द्र सिंह उर्फ सुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र साहाब सिंह पुत्र भगवान सिंह 1/6 भाग
				8/2	निजी	चाही	0-18	0.0455	तेजिन्द्र-मोहन सिंह लिबराहन-संजीव मोहन सिंह लिबराहन पुत्रान लाल गणेश मल हर दौ समभाग
				9/1	निजी	चाही	0-11	0.0278	हरविन्द्र कुमार पुत्र वा किरणबाला विधवा वा नेहा पुत्री गुलशन कुमार हर तीन समभाग
				9/2	निजी	चाही	0-8	0.0202	राजिन्द्र कुमार पुत्र मुंशी राम पुत्र रामलाल
				9/3	निजी	चाही	1-1	0.0531	राविन्द्र कुमार उर्फ गुरविन्द्र कुमार पुत्र मुंशी राम पुत्र रामलाल
				12/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	हरनाम सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
				12/2	निजी	चाही	0-15	0.0379	साहाब सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र नरायण

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				13	निजी	चाही	1-6	0.0658	सिंह 1/6 भाग, बहादुर सिंह-मनप्रीत-मनदीप सिंह पुत्रान अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा अमरजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह 5/24 भाग, सुदेश कुमारी विधवा वा रोजी-मोनिका पुत्रीयान जगतार सिंह पुत्र भगवान सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग, श्रीमती निशा गुप्ता पुत्री राजेश्वर प्रसाद 1/18 भाग, जोगिन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह 1/18 भाग, श्रीमती किरणबाला पुत्री रामधन 1/18 भाग, सुरिन्द्र सिंह उर्फ सुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र साहाब सिंह पुत्र भगवान सिंह 1/6 भाग
				18/2	निजी	चाही	0-2	0.0051	अमरीक सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र सरूप सिंह
				19/1	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				19/2	निजी	चाही	2-3	0.1088	हरनाम सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
				20	निजी	चाही	0-1	0.0025	साहाब सिंह-हरवीर सिंह-प्रीतम सिंह-हरपाल सिंह पुत्रान वा श्रीमती करतार कौर विधवा नरजन सिंह पुत्र वजीर सिंह हर पाँच समभाग
				21/1	निजी	चाही	0-0.25	0.0006	अजमेर सिंह-महाबीर सिंह पुत्रान केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 4/9 भाग, निरमल सिंह-सतनाम सिंह पुत्रान महेताब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग 1/6 भाग, सरन कौर-हरभजन कौर-हरबस कौर पुत्रीयान महेताब सिंह पुत्र. सुन्दर सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 2/9 भाग
				21/2	निजी	चाही	0-17	0.0430	अजमेर सिंह-महाबीर सिंह पुत्रान केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 68/1020 भाग, निरमल सिंह-सतनाम सिंह पुत्रान महेताब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग 306/340 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 1/30 भाग
				22/1/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	अजमेर सिंह-महाबीर सिंह पुत्रान केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 4/9 भाग, निरमल सिंह-सतनाम सिंह पुत्रान महेताब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग 1/6 भाग, सरन कौर-हरभजन कौर-हरबस कौर पुत्रीयान महेताब सिंह पुत्र. सुन्दर सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 2/9 भाग
				22/1/2	निजी	चाही	0-19	0.0481	अजमेर सिंह-महाबीर सिंह पुत्रान केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 68/1020 भाग, निरमल सिंह-सतनाम सिंह पुत्रान महेताब सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दौ समभाग

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									306/340 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 1/30 भाग
				22/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	शांतीदेवी पत्नी मेला राम पुत्र अमी चन्द
				29//1	निजी	चाही	2-0	0.1012	अजमेर सिंह-महाबीर सिंह पुत्रान केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 2/3 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 1/3 भाग
				2	निजी	चाही	1-2	0.0557	बहामसरूप-राकेश पुत्रान मेलाराम पुत्र अमी चन्द हर दौ समभाग
				10/1	निजी	चाही	1-6	0.0658	अजमेर सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 1/2 भाग, सूरजन सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह 1/2 भाग
				10/2	निजी	चाही	0-14	0.0354	महाबीर सिंह पुत्र केसर सिंह पुत्र मोहर सिंह
				11/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				11/2	निजी	चाही	0-9	0.0228	गुरुमुख सिंह पुत्र मन्नी राम पुत्र महेताब सिंह
				29//19	निजी	चाही	0-10	0.0253	दविन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह
				20/1	निजी	चाही	1-18	0.0961	वजीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				20/2/1	निजी	गैरमुम्किन	0-3	0.0076	श्रीमती जीवन बाई-करतार कौर-दलीप कौर पुत्रीयान गुरुमुख सिंह पुत्र मन्ना सिंह हर तीन समभाग 1/3 भाग, त्रिलोचन सिंह-अजीत सिंह-जगिन्द्र सिंह-खडक सिंह पुत्रान महेताब सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग, जमीत सिंह-हरपाल सिंह-नरिन्द्र सिंह पुत्रान इन्द्रसिंह हर तीन समभाग 1/3 भाग
				20/2/2	निजी	चाही	1-17	0.0936	त्रिलोचन सिंह पुत्र महेताब सिंह पुत्र मन्ना सिंह
				21/1	निजी	चाही	1-12	0.0810	श्रीमती उषा पत्नी हरीकिशन पुत्र अमरनाथ
				21/2	निजी	चाही	1-10	0.0759	महिन्द्रपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह पुत्र हरनाम सिंह
				21/3	निजी	चाही	0-10	0.0253	दविन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह
				39//6	निजी	चाही	2-0	0.1012	हरीकिशन पुत्र अमरनाथ पुत्र रला राम 9/13 भाग, श्रीमती उषा पत्नी हरीकिशन पुत्र अमरनाथ 4/13 भाग
				26	निजी	चाही	0-13	0.0329	हरीकिशन पुत्र अमरनाथ पुत्र रला राम
				40//1/1	निजी	चाही	1-1	0.0531	महिन्द्रपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह पुत्र हरनाम सिंह
				1/3	निजी	चाही	0-17	0.0430	खडक सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				10	निजी	चाही	2-4	0.1113	
				53//17	निजी	चाही	0-15	0.0379	रणजीत सिंह पुत्र वजीर सिंह पुत्र नराता सिंह
				64//3/2	निजी	चाही	0-10	0.0253	मुस्तरका मालकान बखानाकास्त गोविन्द्र
				4/1	निजी	चाही	0-1	0.0025	पुत्र बेली राम गैरमौरूसी
				8/2	निजी	चाही	1-13	0.0835	सुरजीत सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र सन्त

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सिंह
				13	निजी	चाही	1-17	0.0936	सुरजीत सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र सन्त सिंह 1/3 भाग, श्रीमती नरजन कौर विधवा वा श्रीमती गुरचरण कौर-जगतार कौर-गुरविन्द्र कौर-सुरेन्द्र कौर पुत्रीयान वा अमरजीत सिंह पुत्र हजुरा सिंह हर छः समभाग 1/3 भाग, प्रधान सिंह-अवतार सिंह-रजिन्द्र सिंह-जसवीर सिंह पुत्रान हरनाम सिंह हर चार समभाग 1/3
				14	निजी	चाही	0-9	0.0228	मुस्तरका मालकान
				18	निजी	चाही	2-0	0.1012	गुरमीत सिंह पुत्र सुरमुख सिंह 947/1729 भाग, चरणजीत सिंह पुत्र सुरमुख सिंह 306/1729 भाग, अमरीक सिंह 254/1729 भाग, हरचरण सिंह 4/1729 भाग, पुत्रान लधा राम वा श्रीमती बलजीन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह 80/1729 भाग, श्रीमती सवीता कौशल पत्नी चन्द्रशेखर पुत्र राज कुमार 138/1729 भाग
				23	निजी	चाही	2-0	0.1012	जगदीश चन्द्र 53/1378 भाग, प्रेम नाथ 365/1378 पुत्रान हरनाम दास पुत्र कन्हा राम , मामराज 172/1378 , बलवन्त सिंह 68/1378, रणजीत सिंह 85/1378, लाल चन्द 153/1378 पुत्रान कुन्दन पुत्र कन्हा, नरेश देवी पत्नी बलदेव सिंह पुत्र करतारा राम 49/1378 भाग, गुरविन्द्र कुमार पुत्र मुंशी राम पुत्र रामलाल 97/2756 भाग, मानव पुत्र रविन्द्र कुमार पुत्र रामलाल 97/2756 भाग, समशेर सिंह पुत्र साधु सिंह 24/1378 भाग, रवि कुमार-टोनी कुमार पुत्रान सुभाष चन्द्र पुत्र गिरधारी लाल 312/1378 भाग
				80	पंचायत	गैरमुमकिन	2-0	0.1012	पंचायत देह
				81	पंचायत	गैरमुमकिन	1-2	0.0557	शामलात देह
				94	पंचायत	चाही	2-0	0.1012	शामलात पत्नी वजीरा हसब सूरत अराजी खेवट वा देह बखानाकास्त कुलवन्त सिंह पुत्र अर्जन सिंह गैरमौरूसी
				96	पंचायत	गैरमुमकिन	0-2	0.0051	पंचायत देह
			(7) हसन पुर हदबस्त नं० 279	11//7/1	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	0-15	0.0379	हरियाणा सरकार
				7/2	निजी	चाही	2-4	0.1113	हरबंस सिंह-कुलबन्त सिंह पुत्रान उजागर सिंह पुत्र साधु हर दौ समभाग
				14/1	सरकारी	गैरमुमकिन	1-12	0.0809	हरियाणा सरकार

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
						नाला			
				14/2	निजी	चाही	1-0	0.0506	हरबंस सिंह-कुलबन्त सिंह पुत्रान उजागर
				17/1	निजी	चाही	1-8	0.0708	सिंह पुत्र साधु हर दौ समभाग
				17/2	सरकारी	गैरमुमकिन	2-0	0.1012	हरियाणा सरकार
				24/2	निजी	चाही	1-12	0.0810	हरबंस सिंह-कुलबन्त सिंह पुत्रान उजागर
				23//4/1	सरकारी	गैरमुमकिन	2-0	0.1012	हरियाणा सरकार
				7/2/1	निजी	चाही	1-6	0.0658	हरबंस सिंह-कुलबन्त सिंह पुत्रान उजागर
				8	सरकारी	गैरमुमकिन	1-17	0.0936	हरियाणा सरकार
				9/1	निजी	चाही	0-10	0.0253	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह
				13/1	निजी	चाही	2-2	0.1063	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 729/2578 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 729/2578 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 800/2578 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 160/1289 भाग
				13/2	सरकारी	गैरमुमकिन	1-18	0.0961	हरियाणा सरकार
				14/1	सरकारी	गैरमुमकिन	0-4	0.0101	
				17/1	सरकारी	गैरमुमकिन	0-2	0.0051	
				18	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 729/2578 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 729/2578 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 800/2578 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 160/1289 भाग
				23	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				26//3	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 1/2 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 1/2 भाग
				8	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 1/2 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 1/2 भाग
				13	निजी	चाही	1-17	0.0936	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 3/20 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 7/20 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग
				18	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 3/20 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 7/20 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग
				23	निजी	चाही	2-0	0.1012	
				36//3	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 3/20 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 7/20 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग
				8	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमति भाग कौर पत्नी सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह 3/20 भाग, गुरमीत सिंह-चरणजीत सिंह पुत्रान सुरमुख सिंह पुत्र गरजा सिंह हर दौ समभाग 7/20 भाग, लाभ सिंह-भाग सिंह पुत्रान हकम सिंह पुत्र करोड़ा सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, श्रीमति गुरमेल कौर विधवा वा गुरचरण सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग
				13/2	निजी	चाही	2-14	0.1366	ईशम सिंह-हुकम सिंह-धर्म सिंह पुत्रान जगत राम पुत्र दया राम हर तीन समभाग
				14	निजी	चाही	1-18	0.0961	श्रीमति माया देवी-करनैलो-लाभो-अमरीको पुत्रीयान वा करनल सिंह-सतपाल-जयपाल-अमरीक-श्याम लाल पुत्रान जीत सिंह पुत्र नत्थू हर नौ समभाग 9/10 भाग, रजत पुत्र गुलाब पुत्र जीत सिंह 1/10 भाग
				17/1	निजी	चाही	1-14	0.0860	
				18	निजी	चाही	0-12	0.0304	ईशम सिंह-हुकम सिंह-धर्म सिंह पुत्रान जगत राम पुत्र दया राम हर तीन समभाग
				17/2	निजी	चाही	2-6	0.1164	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				23	निजी	चाही	0-7	0.0177	
				24	निजी	चाही	2-15	0.1391	
				25	निजी	चाही	1-6	0.0658	श्रीममि उषा रानी विधवा वा प्रदीप कुमार पुत्र सुनील कुमार पुत्र शिव लाल हर दौ समभाग
				40//3	निजी	चाही	0-14	0.0354	ईशम सिंह-हुकम सिंह-धर्म सिंह पुत्रान जगत राम पुत्र दया राम हर तीन समभाग
				4	निजी	चाही	0-16	0.0405	
				5	निजी	चाही	0-16	0.0405	श्रीममि उषा रानी विधवा वा प्रदीप कुमार पुत्र सुनील कुमार पुत्र शिव लाल हर दौ समभाग
				6	निजी	चाही	0-9	0.0228	
				7	निजी	चाही	1-9	0.0734	ईशम सिंह-हुकम सिंह-धर्म सिंह पुत्रान जगत राम पुत्र दया राम हर तीन समभाग
				48	पंचायत	गैरमुमकिन	3-7	0.1695	पंचायत देह
				49	पंचायत	गैरमुमकिन	0-5	0.0126	
			(8) सेगती हदबस्त नं0 306	6//7	निजी	चाही	2-4	0.1113	कृष्ण लाल पुत्र चेतन दास 1/2 भाग, सरला रानी विधवा वा अमित कुमार-रोहित कुमार-अकित कुमार पुत्रान लाल हर चार समभाग 1/2 भाग,
				8	निजी	चाही	1-0	0.0506	
				13	निजी	चाही	4-16	0.2429	
				14	निजी	चाही	3-0	0.1518	
				18	निजी	चाही	7-12	0.3845	
				22/1	निजी	चाही	0-2	0.0051	
				22/2	निजी	चाही	4-19	0.2505	श्रीमती रेवती विधवा गोपी चन्द
				19	निजी	चाही	0-17	0.0430	कृष्ण लाल पुत्र चेतन दास 1/2 भाग, सरला रानी विधवा वा अमित कुमार-रोहित कुमार-अकित कुमार पुत्रान लाल हर चार समभाग 1/2 भाग,
				23/1	निजी	चाही	2-10	0.1265	
				23/2/1/1	सरकारी	गैरमुमकिन	0-12	0.0304	हरियाणा सरकार
				9//1/1	सरकारी	गैरमुमकिन	0-3	0.0076	हरियाणा सरकार
				2/1	सरकारी	गैरमुमकिन	3-6	0.1670	हरियाणा सरकार
				3/1	सरकारी	गैरमुमकिन	4-8	0.2226	
				9/1	सरकारी	गैरमुमकिन	5-4	0.2631	हरियाणा सरकार
				9/2	सरकारी	गैरमुमकिन	1-10	0.0759	हरियाणा सरकार
				11	सरकारी	गैरमुमकिन	4-5	0.2150	हरियाणा सरकार
				12/1	सरकारी	गैरमुमकिन	4-16	0.2429	हरियाणा सरकार
				19/2	सरकारी	गैरमुमकिन	0-15	0.0379	हरियाणा सरकार

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
						कन			
				20	सरकारी	गैरमुम्किन	3-3	0.1594	हरियाणा सरकार
				20//12	सरकारी	गैरमुम्किन	1-7	0.0683	हरियाणा सरकार
				18/2	सरकारी	गैरमुम्किन	6-6	0.3188	हरियाणा सरकार
				19	सरकारी	गैरमुम्किन	3-0	0.1518	हरियाणा सरकार
				22	सरकारी	गैरमुम्किन	0-18	0.0455	हरियाणा सरकार
				23/1	सरकारी	गैरमुम्किन	7-16	0.3947	हरियाणा सरकार
				23/2	सरकारी	गैरमुम्किन	0-4	0.0101	हरियाणा सरकार
				24/1	सरकारी	गैरमुम्किन	0-10	0.0253	हरियाणा सरकार
				23//3	सरकारी	गैरमुम्किन	6-14	0.3390	हरियाणा सरकार
				4/1	सरकारी	गैरमुम्किन	1-10	0.0758	हरियाणा सरकार
				7/2	सरकारी	गैरमुम्किन	3-10	0.1769	हरियाणा सरकार
				8	सरकारी	गैरमुम्किन	4-13	0.2353	हरियाणा सरकार
				13/1	सरकारी	गैरमुम्किन	0-5	0.0126	हरियाणा सरकार
				13/2	सरकारी	गैरमुम्किन	0-8	0.0202	हरियाणा सरकार
				17/2	सरकारी	गैरमुम्किन	4-6	0.2176	हरियाणा सरकार
				18	सरकारी	गैरमुम्किन	0-19	0.0481	हरियाणा सरकार
				24	सरकारी	गैरमुम्किन	7-2	0.3592	हरियाणा सरकार
				32//4	सरकारी	गैरमुम्किन	5-2	0.2580	हरियाणा सरकार
				5	सरकारी	गैरमुम्किन	2-6	0.1162	हरियाणा सरकार
				6	सरकारी	गैरमुम्किन	3-10	0.1769	हरियाणा सरकार
				7	सरकारी	गैरमुम्किन	3-0	0.1518	हरियाणा सरकार
				14	सरकारी	गैरमुम्किन	0-13	0.0329	हरियाणा सरकार
				15/1	सरकारी	गैरमुम्किन	1-8	0.0708	हरियाणा सरकार
				15/2/1	सरकारी	गैरमुम्किन	2-0	0.1012	हरियाणा सरकार

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				18/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	श्रीमती दर्शना रानी पत्नी सतीश, श्रीमती रेणु पत्नी भारतभूषण, श्रीमती पूनम पत्नी नरेश कुमार हर तीन समभाग 5/7 भाग, नरेश कुमार पुत्र आशा नन्द 2/7 भाग
				23/1/1	निजी	चाही	0-10	0.0253	सतीश कुमार-नरेश कुमार-सुरेश कुमार पुत्रान चण्कन्दा राम हर तीन समभाग
				23/1/2	निजी	चाही	4-15	0.2403	श्रीमती दर्शना रानी पत्नी सतीश, श्रीमती रेणु पत्नी भारतभूषण, श्रीमती पूनम पत्नी नरेश कुमार हर तीन समभाग 5/7 भाग, नरेश कुमार पुत्र आशा नन्द 2/7 भाग
				23/2	निजी	चाही	1-0	0.0506	चन्नु लाल-कंवर लाल-सुन्दर लाल-मनोहर लाल पुत्रान वा श्रीमती सीता देवी-पार्वती देवी-लक्ष्मी देवी पुत्रीयान भगवान दास हर सात समभाग 7/8 भाग, अशोक कुमार-अरुण कुमार-अनिल कुमार पुत्रान वा श्रीमती आशा-अरुणा-अनिता पुत्रीयान वा श्रीमती सुरज देवी विधवा कुन्दन लाल हर सात समभाग 1/8 भाग
				22/1/2	निजी	चाही	0-10	0.0253	सुभाष कुमार पुत्र पपती प्रसाद 345/1394 भाग, लज्जा राम-हरि सिंह पुत्रान बख्ताबर सिंह 346/697 भाग, सतीश कुमार-नरेश कुमार-सुरेश कुमार पुत्रान चण्कन्दा राम हर तीन समभाग 105/1394 भाग, सतीश कुमार पुत्र आशा नन्द 126/697 भाग
				35//2	निजी	चाही	4-10	0.2277	
				3	निजी	चाही	4-15	0.2403	
				8	निजी	चाही	0-10	0.0253	
				9/1/1	निजी	चाही	1-7	0.0683	
				9/2	निजी	चाही	3-9	0.1746	
				9/1/2	निजी	चाही	1-11	0.0784	
			(9) बिशनगढ़ हदबस्त नं० 305	25//16	निजी	चाही	6-19	0.3517	आशा नन्द पुत्र लख्खा राम पुत्र फतेह चन्द 94/261 भाग, कृष्ण लाल पुत्र जीवन दास पुत्र लख्खा राम 106/783 भाग, लज्जा राम-हरि सिंह पुत्रान बख्ताबर सिंह पुत्र देवीदयाल हर दौ समभाग 26/261 भाग, बच्चन सिंह-रामगोपाल-सिंहराम-जरलैल सिंह पुत्रान साधुराम पुत्र बन्सी हर चार समभाग 844/9396 भाग, मलकीत सिंह-गुलजार सिंह-बलकार सिंह पुत्रान रामसिंह पुत्र साधु हर तीन समभाग 211/9396 भाग, वासुदेव-तिलकराज पुत्रान गुसाई राम हर दौ समभाग 47/174 भाग, राज कुमार-शमशेर सिंह पुत्रान हरकेश पुत्र साधुराम हर दौ समभाग 211/9396 भाग
				17	निजी	चाही	1-4	0.0607	दलबीर सिंह-जगदीप सिंह पुत्रान चरण सिंह उर्फ अमरीक सिंह पुत्र महमा सिंह हर दौ समभाग 1/4 भाग, नसीब सिंह-पुर्ण सिंह-बलबीर सिंह पुत्रान महमा सिंह पुत्र चडता हर तीन समभाग 3/4 भाग,
				23	निजी	चाही	0-8	0.0202	आशा नन्द पुत्र लख्खा राम पुत्र फतेह
				24	निजी	चाही	6-4	0.3137	
				25	निजी	चाही	3-4	0.1619	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				26//11	निजी	चाही	0-9	0.0228	चन्द 94/261 भाग, कृष्ण लाल पुत्र जीवन दास पुत्र लख्खा राम 106/783 भाग, लज्जा राम-हरि सिंह पुत्रान बखताबर सिंह पुत्र देवीदयाल हर दौ समभाग 26/261 भाग, बच्चन सिंह-रामगोपाल-सिंह राम-जरलैल सिंह पुत्रान साधुराम पुत्र बन्सी हर चार समभाग 844/9396 भाग, मलकीत सिंह-गुलजार सिंह-बलकार सिंह पुत्रान रामसिंह पुत्र साधु हर तीन समभाग 211/9396 भाग, वासुदेव-तिलकराज पुत्रान गुसाई राम हर दौ समभाग 47/174 भाग, राज कुमार-शमशेर सिंह पुत्रान हरकेश पुत्र साधुराम हर दौ समभाग 211/9396 भाग
				20/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	गुरनाम सिंह-प्रेम सिंह पुत्रान श्रीमती दशहरी पत्नी बिशना हर दौ समभाग 2/3 भाग, श्रीमती रेणु पत्नी भारत भूषण पुत्र आशा नन्द 1/3 भाग,
				29//3/2	निजी	चाही	5-6	0.2682	आशा नन्द पुत्र लख्खा राम पुत्र फतेह चन्द
				4	निजी	चाही	5-0	0.2530	गुरनाम सिंह-प्रेम सिंह पुत्रान श्रीमती दशहरी पत्नी बिशना हर दौ समभाग 2/3 भाग, श्रीमती रेणु पत्नी भारत भूषण पुत्र आशा नन्द 1/3 भाग,
				7	निजी	चाही	0-9	0.0228	अजैब सिंह-सतपाल सिंह-जसपाल सिंह पुत्रान बाबू राम पुत्र समपूर्ण सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, अमरकौर विधवा वा जतिन्द्र सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र बाबू राम हर दौ समभाग 1/4 भाग,
				8	निजी	चाही	6-11	0.3314	लज्जा राम-हरि सिंह पुत्रान बखताबर सिंह पुत्र देवीदयाल हर दौ समभाग,
				9	निजी	चाही	2-0	0.1012	अजैब सिंह-सतपाल सिंह-जसपाल सिंह पुत्रान बाबू राम पुत्र समपूर्ण सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, अमरकौर विधवा वा जतिन्द्र सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र बाबू राम हर दौ समभाग 1/4 भाग,
				12	निजी	चाही	5-12	0.2833	लज्जा राम-हरि सिंह पुत्रान बखताबर सिंह पुत्र देवीदयाल हर दौ समभाग,
				13	निजी	चाही	3-2	0.1569	अजैब सिंह-सतपाल सिंह-जसपाल सिंह पुत्रान बाबू राम पुत्र समपूर्ण सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग, अमरकौर विधवा वा जतिन्द्र सिंह पुत्र नसीब सिंह पुत्र बाबू राम हर दौ समभाग 1/4 भाग,
				18	निजी	चाही	0-12	0.0304	कुल 1753 भाग नरजन सिंह आदि मालकान बादस्तूर
				19	निजी	चाही	6-5	0.3162	सर्वण सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र बसावा सिंह 1/2 भाग, बलदेव सिंह 587/3840 भाग, ज्ञान सिंह 1/6 भाग पुत्रान चरण सिंह पुत्र साधु सिंह, श्रीमती नरेन्द्र कौर विधवा वा मिलनप्रीत सिंह पुत्र मान सिंह पुत्र चरण सिंह हर दौ समभाग 176/1280 भाग, श्रीमती डिपल पत्नी राजेश कुमार पुत्र पवन कुमार वा श्रीमती सुषमा पत्नी उमेश कुमार पुत्र पवन कुमार हर दौ समभाग 55/1280 भाग
			(10) जनसु हदबस्त नं० 308	20//19	निजी	चाही	1-8	0.0709	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				23//2	निजी	चाही	4-9	0.2252	रविन्द्र कुमार-सुरेन्द्र कुमार-रजिन्द्र कुमार पुत्रान सुभाष चन्द पुत्र रामलाल हर तीन समभाग 1/2 भाग, जीवन कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र रामलाल 1/2 भाग,
				9/1	निजी	चाही	2-0	0.1012	रूलदा राम पुत्र साधु राम पुत्र गंगा राम 215/1064 भाग, जय सिंह पुत्र गुलाब सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, राजकुमार पुत्र हुकम सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, मामराज-गुरदेव सिंह पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामलाल हर दौ समभाग 107/1064 भाग, श्रीमती बसो देवी विधवा वा गुरनाम सिंह-जगत राम-भजन सिंह-पवन कुमार पुत्रान सावन राम पुत्र साधु राम 935/7448 भाग, सन्तोष कुमार पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 3/532 भाग, नछत्रपाल पुत्र आतमा राम पुत्र मुंशी राम 3/152 भाग, श्याम सुन्दर-रमेश कुमार-सुरेशपाल-पवन कुमार-कर्म चन्द पुत्रान वा श्रीमती अग्रेजो विधवा शेर सिंह पुत्र शंकर लाल हर छः समभाग 1263/3724 भाग, माया राम पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, रामरतन पुत्र आत्मा राम पुत्र तुलसीराम 3/152 भाग, श्रीमती अग्रेजो देवी माता धर्म चन्द पुत्र शेर सिंह 421/7448 भाग, रामकरण पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, मलकीत सिंह-गुरमीत सिंह पुत्रान देशराज पुत्र रामानन्द हर दौ समभाग 3/152 भाग,
				9/2	निजी	चाही	2-0	0.1012	रविन्द्र कुमार-सुरेन्द्र कुमार-रजिन्द्र कुमार पुत्रान सुभाष चन्द पुत्र रामलाल हर तीन समभाग 1/2 भाग, जीवन कुमार पुत्र जगदीश चन्द पुत्र रामलाल 1/2 भाग,
				12	निजी	चाही	5-0	0.2530	रूलदा राम पुत्र साधु राम पुत्र गंगा राम 215/1064 भाग, जय सिंह पुत्र गुलाब सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, राजकुमार पुत्र हुकम सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, मामराज-गुरदेव सिंह पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामलाल हर दौ समभाग 107/1064 भाग, श्रीमती बसो देवी विधवा वा गुरनाम सिंह-जगत राम-भजन सिंह-पवन कुमार पुत्रान सावन राम पुत्र साधु राम 935/7448 भाग, सन्तोष कुमार पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 3/532 भाग, नछत्रपाल पुत्र आतमा राम पुत्र मुंशी राम 3/152 भाग, श्याम सुन्दर-रमेश कुमार-सुरेशपाल-पवन कुमार-कर्म चन्द पुत्रान वा श्रीमती अग्रेजो विधवा शेर सिंह पुत्र शंकर लाल हर छः समभाग 1263/3724 भाग, माया राम पुत्र

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, रामरतन पुत्र आत्मा राम पुत्र तुलसीराम 3/152 भाग, श्रीमती अग्रेजो देवी माता धर्म चन्द पुत्र शेर सिंह 421/7448 भाग, रामकरण पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, मलकीत सिंह-गुरमीत सिंह पुत्रान देशराज पुत्र रामानन्द हर दौ समभाग 3/152 भाग,
				19	निजी	चाही	2-19	0.1493	रुलदा राम पुत्र साधु राम पुत्र गंगा राम 215/1064 भाग, जय सिंह पुत्र गुलाब सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, राजकुमार पुत्र हुकम सिंह पुत्र रामलाल 107/2128 भाग, मामराज-गुरदेव सिंह पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामलाल हर दौ समभाग 107/1064 भाग, श्रीमती बसो देवी विधवा वा गुरनाम सिंह-जगत राम-भजन सिंह-पवन कुमार पुत्रान सावन राम पुत्र साधु राम 935/7448 भाग, सन्तोष कुमार पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 3/532 भाग, नछत्रपाल पुत्र आतमा राम पुत्र मुंशी राम 3/152 भाग, श्याम सुन्दर-रमेश कुमार-सुरेशपाल-पवन कुमार-कर्म चन्द पुत्रान वा श्रीमती अग्रेजो देवी विधवा शेर सिंह पुत्र शंकर लाल हर छः समभाग 1263/3724 भाग, माया राम पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, रामरतन पुत्र आत्मा राम पुत्र तुलसीराम 3/152 भाग, श्रीमती अग्रेजो देवी माता धर्म चन्द पुत्र शेर सिंह 421/7448 भाग, रामकरण पुत्र सावन राम पुत्र साधु राम 5/931 भाग, मलकीत सिंह-गुरमीत सिंह पुत्रान देशराज पुत्र रामानन्द हर दौ समभाग 3/152 भाग,
				46//10	निजी	चाही	1-4	0.0607	हरियाणा वक्फ बोर्ड ईदराज बखानाकाशत सोहन सिंह-सन्त सिंह पुत्रान बिशन सिंह हर दौ समभाग गैरमौरूसियान
				11/1	निजी	चाही	1-11	0.0784	
				11/2	निजी	चाही	2-5	0.1138	श्रीमती चन्द्रकान्ता 91/2188 भाग विधवा वा श्रीमती अनीता 73/2188 भाग पुत्री रतन सिंह पुत्र परसा, श्रीमती सुषमा विधवा वा अक्षित पुत्र वा श्रीमती बशाखी पुत्री जतिन्द्र कुमार पुत्र रतन हर तीन समभाग 55/2188 भाग, पुर्ण सिंह पुत्र परसा पुत्र हमीरा 219/2188 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र परसा पुत्र हमीरा 75/547 भाग, कर्मजीत सिंह-बलदेव सिंह-सुनील कुमार पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र बुधराम हर तीन समभाग 4/547 भाग, सतीश कुमार पुत्र पुर्ण सिंह पुत्र परसा 20/547 भाग, बलकार सिंह-गुरचरण
				20	निजी	चाही	6-12	0.3339	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सिंह पुत्रान जौगिन्द्र सिंह पुत्र लक्षमण सिंह हर दौ समभाग 51/1094 भाग, मेवा सिंह-सुभाष कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र लक्षमण दास हर दौ समभाग 51/1094 भाग, रामकुमार पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र लक्षमण दास 7/2188 भाग, अश्वनी कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र लक्षमण दास 7/2188 भाग, सन्तोष कुमार-पृथ्वी सिंह-रामकरण पुत्रान परतापा पुत्र हमीरा हर तीन समभाग 219/2188 भाग, गुरनाम सिंह-चन्द्रमुन्नी-मानसिंह-सतपाल-मोहन लाल पुत्रान सुन्दर पुत्र हमीरा हर पाँच समभाग 219/2188 भाग, सुरजा पुत्र चूडा पुत्र हमीरा 164/1641 भाग, बशाखी राम-रामकरण-जोगिन्द्र सिंह-बनवारी पुत्रान वा श्रीमती मन्नो देवी पुत्री संगारा पुत्र चूडा हर पाँच समभाग 410/4923 भाग, बलविन्द्र सिंह-बलराम पुत्रान वा श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री मान सिंह पुत्र संगारा हर तीन समभाग 82/4923 भाग, कमलफूल-गुरदयाल सिंह पुत्रान नरजन सिंह पुत्र परसा हर दौ समभाग 21/1094 भाग, महिन्द्र सिंह-रामपाल पुत्रान रूपराम पुत्र चूडा 164/1641 भाग,
				47//5	निजी	चाही	5-10	0.2783	हरियाणा वक्फ बोर्ड ईदराज बखानाकाशत
				6	निजी	चाही	6-16	0.3441	बलजीन्द्र सिंह-रणजीत सिंह पुत्रान नरजन सिंह पुत्र जय सिंह हर दौ समभाग गैरमौरूसियान
				15/1	निजी	चाही	2-8	0.1214	
				16	निजी	चाही	1-14	0.0860	श्रीमती चन्द्रकान्ता 91/2188 भाग विधवा वा श्रीमती अनीता 73/2188 भाग पुत्री रतन सिंह पुत्र परसा, श्रीमती सुषमा विधवा वा अक्षित पुत्र वा श्रीमती बशाखी पुत्री जतिन्द्र कुमार पुत्र रतन हर तीन समभाग 55/2188 भाग, पुर्ण सिंह पुत्र परसा पुत्र हमीरा 219/2188 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र परसा पुत्र हमीरा 75/547 भाग, कर्मजीत सिंह-बलदेव सिंह-सुनील कुमार पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र बुधराम हर तीन समभाग 4/547 भाग, सतीश कुमार पुत्र पुर्ण सिंह पुत्र परसा 20/547 भाग, बलकार सिंह- गुरचरण सिंह पुत्रान जौगिन्द्र सिंह पुत्र लक्षमण सिंह हर दौ समभाग 51/1094 भाग, मेवा सिंह-सुभाष कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र लक्षमण दास हर दौ समभाग 51/1094 भाग, रामकुमार पुत्र महिन्द्र सिंह पुत्र लक्षमण दास 7/2188 भाग, अश्वनी कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र लक्षमण दास 7/2188 भाग, सन्तोष कुमार-पृथ्वी
				67//9/1	निजी	चाही	0-3	0.0076	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									सिंह-रामकरण पुत्रान परतापा पुत्र हमीरा हर तीन समभाग 219/2188 भाग, गुरनाम सिंह-चन्द्रमुन्नी-मानसिंह-सतपाल-मोहन लाल पुत्रान सुन्दर पुत्र हमीरा हर पौंच समभाग 219/2188 भाग, सुरजा पुत्र चूडा पुत्र हमीरा 164/1641 भाग, बशाखी राम-रामकरण-जोगिन्द्र सिंह-बनवारी पुत्रान वा श्रीमती मन्नो देवी पुत्री संगारा पुत्र चूडा हर पौंच समभाग 410/4923 भाग, बलविन्द्र सिंह-बलराम पुत्रान वा श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री मान सिंह पुत्र संगारा हर तीन समभाग 82/4923 भाग, कमलफूल-गुरदयाल सिंह पुत्रान नरजन सिंह पुत्र परसा हर दौ समभाग 21/1094 भाग, महिन्द्र सिंह-रामपाल पुत्रान रूपराम पुत्र चूडा 164/1641 भाग,
				9/2	निजी	चाही	3-10	0.1771	सुरजा पुत्र चूडा पुत्र हमीरा 1/6 भाग, बशाखी राम-रामकरण-जोगिन्द्र सिंह-बनवारी पुत्रान वा श्रीमती मन्नो देवी पुत्री संगारा पुत्र चूडा हर पौंच समभाग 5/36 भाग, बलविन्द्र सिंह-बलराम पुत्रान वा श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री मान सिंह पुत्र संगारा हर तीन समभाग 1/36 भाग, बनारसी लाल पुत्र मथुरा 1/8 भाग, महिन्द्र सिंह-रामपाल पुत्रान रूपराम पुत्र चूडा हर दौ समभाग 1/6 भाग, पुर्ण चन्द-रषपाल-सोमनाथ-हेमत कुमार पुत्रान रामजी लाल पुत्र मथुरा हर चार समभाग 1/8 गुरनाम सिंह-केहर सिंह-ज्ञान चन्द-जोगिन्द्र सिंह पुत्रान अग्रेजो-जगिन्द्रो पुत्रीयान साधुराम पुत्र मथुरा हर छ : समभाग 3/28 भाग, श्रीमती रतनी विधवा वा प्रिन्स पुत्र वा बिन्द्र कौर पुत्री मदन लाल पुत्र साधु 1/56 भाग, भगवान दास-हरदेव सिंह-चन्न सिंह-रामभज-भूपेन्द्र सिंह पुत्रान वा श्रीमती ज्ञानो-रोशनी देवी पुत्रीयान सुरजा राम पुत्र मथुरा हर सात समभाग 1/8 भाग,
			(11) कलेरा हदबस्त नं० 307	47//8	निजी	चाही	0-7	0.0177	जोगिन्द्र सिंह-शिव राम-महिन्द्र सिंह-कृष्ण लाल पुत्रान लक्ष्मण दास पुत्र चेत राम हर चार समभाग 1/2 भाग, रामेश्वर दास-सुरेश पाल-जसमेर सिंह पुत्रान मुखतयार सिंह पुत्र रामकिशन हर तीन समभाग 1/6 भाग, कप्तान सिंह पुत्र राम रतन पुत्र रामकिशन 1/6 भाग, जसबीर सिंह-कपिल देव पुत्रान रामसरूप पुत्रान रामकिशन हर दौ समभाग 1/6 भाग
				9	निजी	चाही	0-9	0.0228	

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				12/1	निजी	चाही	1-9	0.0734	नरजन सिंह-कपूर चन्द पुत्रान मुन्शी राम पुत्र आशा राम हर दौ समभाग 1/3 भाग, धनी राम-बाबू राम पुत्रान सुन्दर सिंह पुत्र आशा राम हर दौ समभाग 1/3 भाग, शिव सर्जन पुत्र मुन्नी लाल पुत्र सुन्दर सिंह 1/12 भाग, मुन्नी लाल पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र आशा राम 1/12 भाग, माम चन्द-राम कुमार पुत्रान जीत सिंह पुत्र आशा राम हर दौ समभाग 1/6 भाग
				12/2	निजी	चाही	1-4	0.0607	जौगिन्द्र सिंह-शिव राम-महिन्द्र सिंह-कृष्ण लाल पुत्रान लक्ष्मण दास पुत्र चेत राम हर चार समभाग 1/2 भाग, रामेश्वर दास-सुरेश पाल-जसमेर सिंह पुत्रान मुखतयार सिंह पुत्र रामकिशन हर तीन समभाग 1/6 भाग, कप्तान सिंह पुत्र राम रतन पुत्र रामकिशन 1/6 भाग, जसबीर सिंह-कपिल देव पुत्रान रामसरूप पुत्रान रामकिशन हर दौ समभाग 1/6 भाग
				13	निजी	चाही	1-0	0.0506	
				63//9	निजी	चाही	4-0	0.2024	माया चन्द-धासी राम पुत्रान चमोल पुत्र बारू हर दौ समभाग 32/301 भाग, तारा चन्द-रोशन लाल पुत्रान वा श्रीमती रोशनी देवी-अमरो देवी पुत्रीयान वा तारो देवी विधवा चमोला हर चार समभाग 32/301 भाग, माम राज-हसराज- अमीर चन्द-वजीर चन्द-गुरमेल सिंह पुत्रान दाता राम हर पौंच समभाग 30/301 भाग, केहर सिंह-रामसरूप-निर्मल चन्द पुत्रान बरखा राम पुत्र झन्डु राम हर तीन समभाग 45/602 भाग, श्रीमती सलिन्दरो विधवा वा संजीव-संदीप कुमार-जसबीर सिंह पुत्रान जरनैल सिंह पुत्र बरखा राम हर चार समभाग 15/602 भाग, राज सिंह-नरसिंह पुत्रान राजा राम पुत्र बारू हर दौ समभाग 170/903 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र परसराम पुत्र हमीरा 40/301 भाग, कमलफूल- गुरदयाल पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र परसराम हर दौ समभाग 50/903 भाग, सुरजीत सिंह पुत्र कपूरीया पुत्र बारू 191/903 भाग
				12	निजी	चाही	3-12	0.1822	
				13	निजी	चाही	0-3	0.0076	घन्नी राम पुत्र अनतराम पुत्र धीरू 1/2 भाग, रामेश्वरदास पुत्र बाबू राम पुत्र अनत राम 1/4 भाग, अनिल कुमार पुत्र जयपाल पुत्र बाबू राम 1/4 भाग
				18/1	निजी	चाही	0-1	0.0025	
				18/2	निजी	चाही	1-6	0.0658	बख्शी राम-राजकुमार-रामेश्वर पुत्रान रामचन्द्र पुत्र पुर्ण चन्द हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती रामकली पत्नी धन्नी राम पुत्र अनत राम 1/4 भाग
				19	निजी	चाही	3-6	0.1670	माया चन्द-धासी राम पुत्रान चमोल पुत्र

क. स.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम हदबस्त संख्या के साथ	सर्वे कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमि मालिक का नाम / सम्मिलित व्यक्ति
							कनाल / मरले	हैक्टयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				22	निजी	चाही	0-11	0.0278	बारु हर दौ समभाग 32/301 भाग, तारा चन्द-रोशन लाल पुत्रान वा श्रीमती रोशनी देवी-अमरो देवी पुत्रीयान वा तारो देवी विधवा चमोला हर चार समभाग 32/301 भाग, माम राज-हसराज-अमीर चन्द-वजीर चन्द-गुरमेल सिंह पुत्रान दाता राम हर पाँच समभाग 30/301 भाग, केहर सिंह-रामसरूप-निर्मल चन्द पुत्रान बरखा राम पुत्र झन्डु राम हर तीन समभाग 45/602 भाग, श्रीमती सलिन्दरो विधवा वा संजीव-संदीप कुमार-जसबीर सिंह पुत्रान जरनैल सिंह पुत्र बरखा राम हर चार समभाग 15/602 भाग, राज सिंह-नरसिंह पुत्रान राजा राम पुत्र बारु हर दौ समभाग 170/903 भाग, सुखदेव सिंह पुत्र परसराम पुत्र हमीरा 40/301 भाग, कमलफूल-गुरदयाल पुत्रान नरंजन सिंह पुत्र परसराम हर दौ समभाग 50/903 भाग, सुरजीत सिंह पुत्र कपूरीया पुत्र बारु 191/903 भाग
				23	निजी	चाही	0-13	0.0329	बख्शी राम-राजकुमार-रामेश्वर पुत्रान रामचन्द्र पुत्र पुर्ण चन्द हर तीन समभाग 3/4 भाग, श्रीमती रामकली पत्नी धन्नी राम पुत्र अनंत राम 1/4 भाग
						कुल	681-9	34.4544	

[फाईल कमांक/भाराराप्रा/22052/2013-14/हरियाणा/अम्बाला]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3473 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 600 (E), dated the 11th, March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.65 on the stretch of land from Km. 10.850 to Km. 24.100 (Ambala Section) in District of Ambala, in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune” Chandigarh Zone edition 1st April, 2013 and “Danik Bhaskar” Ambala Zone edition, dated the 2nd April, 2013; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from km 10.850 to km 24.200 of the National Highway No. 65 (Ambala –Kaithal Section) in the state of Haryana

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Ambala	Ambala	(1) Manka H.B. No. 178	2//14/2	Private	Agriculture	0-4	0.0101	Smt. Sukhdev Kaur W/o Gurnam S/o Rachan Singh
				17/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Vikash S/o Makhan Lal S/o Devraj
				17/2	Private	Agriculture	1-5	0.0632	Rakesh S/o BrijBhushan S/o Laxmi Chand ½ share, Smt. Santosh W/o Rakesh S/o BrijBhushan ½ share R/o A/City
				17/3	Private	Agriculture	0-14	0.0354	Hermesh Singh-Jeet Singh-Ramsaran Ss/o Kaka Singh S/o Sulekhy three equal shares R/o Balana, Khukasht 4/5 share, Joyti S/o Bishana S/o Mangal Hali 1/5 share
				23	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Mahinder Singh-Gurmail Singh Ss/o Bachan Singh S/o Sunder Singh two equal Shares R/o Balana
				24/2	Private	Agriculture	1-8	0.0708	Jaswant Singh S/o Achhar Singh S/o Raniya
				5//3	Private	Agriculture	2-2	0.1063	Mahinder Singh-Gurmail Singh Ss/o Bachan Singh S/o Sunder Singh two equal Shares R/o Balana
				4	Private	Agriculture	3-0	0.1518	Jaswant Singh S/o Achhar Singh S/o Raniya
				7	Private	Agriculture	2-18	0.1467	
				8	Private	Agriculture	2-8	0.1214	
				13/1	Private	Agriculture	0-8	0.0202	Smt. Savita W/o Ashok Kumar S/o Paran Nath ½ share, Ashok Kumar S/o Paran Nath S/o Vidhya Rattan ½ share R/o A/City
				13/2	Private	Agriculture	0-17	0.0430	Smt. Raj Khosala W/o Inderjeet Singh S/o Kishori 1/8 share, Smt. Meenu W/o Vikash 1/8 share, Reetu W/o Navdeep 1/8 share, Navdeep S/o Inderjeet 1/8 share, Vikash S/o Inderjeet ¼ share , Inderjeet S/o Kishori ¼ share
				14	Private	Agriculture	2-18	0.1467	Jaswant Singh S/o Achhar Singh S/o Raniya
				18	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Labh Singh-Sarwan Singh-

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Gurnam Singh-Harneek Singh Ss/o Joginder Singh /o Surmakh Singh four equal Shares
				19	Private	Agriculture	1-19	0.0987	Smt. Raj Khosala W/o Inderjeet S/o Kishori 1/8 share, Smt. Meenu W/o Vikash S/o Inderjeet Singh 1/8 share, Reetu W/o Navdeep S/o Inderjeet Singh 1/8 share, Navdeep S/o Inderjeet 1/8 share, Vikash S/o Inderjeet 1/4 share , Inderjeet S/o Kishori 1/4 share
				22	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Inderjeet Singh S/o Kishori 1/4 share, Vikash S/o Inderjeet Singh 1/4 share Smt. Raj W/o Inderjeet Singh 1/8 share Smt. Meenu W/o Vikash 1/8 share, Reetu W/o Navdeep 1/8 share, Navdeep S/o Inderjeet 1/8 share,
				23	Private	Agriculture	3-8	0.01720	Labh Singh-Sarwan Singh-Gurnam Singh-Harneek Singh Ss/o Joginder Singh /o Surmakh Singh four equal Shares
				9//2	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Nagina S/o Narata S/o Kartara 1/6 share, Sukhdev S/o Jeet Singh S/o Narata 1/6 share, Darshan S/o Surjeet 1/6 share, Krishan S/o Karm Singh S/o Mangat Ram 1/4 share, Lakhmir Singh-Malkit Singh Ss/o Angrej S /o Mast Ram equal shares 1/4 share, Kast Nagina -juttu Sam Bhag 9/10 Bhag share Holders , Karma S/o Waryam S/o Telu Hali 1/10 share
				3	Private	Agriculture	2-19	0.01493	Labh Singh-Sarwan Singh-Gurnam Singh-Harneek Singh Ss/o Joginder Singh /o Surmakh Singh four equal Shares
				8	Private	Agriculture	1-4	0.0607	Ajamer Singh S/o Dalip Singh S/o
				9/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Daya Ram 1/2 share, Bahadur Singh-Sahib Singh-Tirlochan Ss/o Suchha Singh S/o Dalip Singh three equal shares 1/2 share
				9/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Nagina S/o Narata S/o Kartara 1/6 share, Sukhdev S/o Jeet Singh S/o Narata 1/6 share, Darshan S/o Surjeet 1/6 share, Krishan S/o Karm Singh S/o Mangat Ram 1/4 share, Lakhmir Singh-Malkit Singh S/o Angrej S /o Mast Ram equal shares 1/4 share Kast Nagina -juttu Sam Bhag 9/10 Bhag share Holders , Karma S/o Waryam S/o Telu Hali 1/10 share
				11	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Sukhdev Singh S/o Puran Singh S/o Veer Singh 1/2 share, Smt. Tej

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Kaur Mother & Smt. Hermeet Kaur Wd/o & Talvinder Singh-Varinder Singh Ss/o Hakam Singh S/o Puran Four equal Shares ½ share
				12	Private	Agriculture	3-3	0.1594	Ajamer Singh S/o Dalip Singh S/o Daya Ram ½ share, Bahadur Singh-Sahib Singh-Tirlochan Ss/o Suchha Singh S/o Dalip Singh three equal shares ½ share
				19	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				20	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Mamta W/o Naresh S/o Rameshwar 1/3 share, Smt. Pooja W/o Ashwani S/o Krishan Lal 1/9 share, Neha D/o Vijay Kumar 1/9 share, Arjun S/o Pokhar 1/9 share, Preetmehinder Singh-Gursewak Ss/o Tejparkash equal shares 1/3 share
				21	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Subhash Chand S/o Nem Dass S/o Jagat Mal 731/1231 share, Ajay Kumar-Sanjay Kumar Ss/o Subhash Chand S/o Nem Dass equal shares 250/1231 share, Smt. Suman W/o Subhash Chand S/o Nem Dass 250/1231 share
				22	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Ajamer Singh S/o Dalip Singh S/o Daya Ram ½ share, Bahadur Singh-Sahib Singh-Tirlochan Ss/o Suchha Singh S/o Dalip Singh three equal shares ½ share
				10/1/1	Private	Agriculture	1-3	0.0582	Ajay Kumar S/o Subhash Chand S/o Nem Dass, Kast Subhash S/o Nem Dass S/o Jagat Ram Tennet
				1/2	Private	Agriculture	1-1	0.0531	Kamalapat S/o Nem Dass S/o jagat Mal 341/1230 share, Smt. Ravinder W/o Kamalapat 623/1230 Share, Smt. Vandana W/o Aman S/o Kamalapat 133/1230 share , Aman S/o Kamalapat 133/1230 share
				1/3	Private	Agriculture	1-4	0.0607	Ajamer Singh S/o Dalip Singh S/o Daya Ram ½ share, Bahadur Singh-Sahib Singh-Tirlochan Ss/o Suchha Singh S/o Dalip Singh three equal shares ½ share
				1/4	Private	Agriculture	1-7	0.0683	Gurdail Singh S/o Sawan S/o Kishana 1/3 share, Angrej Singh-Gurmej Singh Ss/o Gurdail Singh S/o Sawan Singh equal shares 2/3 share R/o Balana
				2/1	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Ajamer Singh S/o Dalip Singh S/o Daya Ram ½ share, Bahadur Singh-Sahib Singh-Tirlochan Ss/o Suchha Singh S/o Dalip Singh three equal shares ½ share

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				10/1	Private	Agriculture	3-0	0.1518	Gurdail Singh S/o Sawan S/o Kishana 1/3 share, Angrej Singh-Gurmej Singh Ss/o Gurdail Singh S/o Sawan Singh equal shares 2/3 share R/o Balana
				10/2	Private	Agriculture	0-7	0.0177	Kamalapat S/o Nem Dass S/o jagat Mal 341/1230 share, Smt. Ravinder W/o Kamalapat 623/1230 Share, Smt. Vandana W/o Aman S/o Kamalapat 133/1230 share , Aman S/o Kamalapat 133/1230 share
				11	Private	Agriculture	2-16	0.1417	Gurdail Singh S/o Sawan S/o Kishana 1/3 share, Angrej Singh-Gurmej Singh S/o Gurdail Singh Ss/o Sawan Singh equal shares 2/3 share R/o Balana
				10//20/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	
				20/2	Private	Agriculture	1-11	0.0784	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares 1/3 share, Smt. Paramjit Kaur W/o Gurdail Singh 1/3 share, Smt. Shila W/o Ashwani 7/60 share, Smt. Mamta W/o Naresh Kumar S/o Rameshwar Datt 1/12 share, Amarjeet Kaur W/o Tejparkash S/o Datta Singh 1/12 share, Smt. Sawaranjit Kaur W/o Hardial Singh S/o Jaswant Singh 1/20 share
				21/1	Private	Agriculture	0-0.25	0.0006	
				11//5/2	Private	Agriculture	0-4	0.0101	Kamalapat S/o Nem Dass S/o jagat Mal 341/1230 share, Smt. Ravinder W/o Kamalapat 623/1230 Share, Smt. Vandana W/o Aman S/o Kamalapat 133/1230 share , Aman S/o Kamalapat 133/1230 share
				6	Private	Agriculture	1-7	0.0683	
				15/1	Private	Agriculture	1-1	0.0531	Subhash Chand S/o Nem Dass S/o Jagat Mal 731/1231 share, Ajay Kumar-Sanjay Kumar Ss/o Subhash Chand S/o Nem Dass equal shares 250/1231 share, Smt. Suman W/o Subhash Chand S/o Nem Dass 250/1231 share
				15/2	Private	Agriculture	1-5	0.0632	Rajinder Kumar S/o Nem Dass 7/16 share, Vikash-Manish Ss/o Rajinder Kumar S/o Nem Dass equal shares 19/88 share, Smt. Kusham W/o Rajinder Kumar S/o Nem Dass 61/176 share
				16/1	Private	Agriculture	1-1	0.0531	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares 1/3 share, Smt. Paramjit Kaur W/o Gurdail Singh 1/3 share, Smt. Shila W/o Ashwani 7/60 share,
				25/1	Private	Agriculture	2-8	0.1214	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Smt. Mamta W/o Naresh Kumar S/o Rameshwar Datt 1/12 share, Amarjeet Kaur W/o Tejparkash S/o Datta Singh 1/12 share, Smt. Sawaranjit Kaur W/o Hardial Singh S/o Jaswant Singh 1/20 share
				25/2	Private	Agriculture	0-16	0.0405	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares
				24	Private	Agriculture	2-4	0.01113	Narmail Singh-Ramesh Ss/o Pirthy Singh S/o Bakshi Ram equal share R/o Balana
				15//4/1	Private	Agriculture	1-5	0.0632	Baljinder Singh S/o Hardit Singh S/o Bakshi Ram
				4/2	Private	Agriculture	1-5	0.0632	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares
				5	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Baljinder Singh S/o Hardit Singh S/o Bakshi Ram
				6	Private	Agriculture	2-16	0.1417	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares
				7	Private	Agriculture	2-10	0.1265	Baljinder Singh S/o Hardit Singh S/o Bakshi Ram
				14/1	Private	Agriculture	0-16	0.0405	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares
				14/2	Private	Agriculture	0-15	0.0379	Kamaljit Singh-Vikaramjit Singh Ss/o Gurnam Singh S/o karnail Singh equal shares
				15	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Dilbagh Singh-Kaptan Singh Ss/o Jaspal Singh S/o Bakhtawar Singh equal shares ½ share , Harbans Singh S/o Surmakh Singh S/o Bhajju Ram 169/674 share,Baljinder Singh S/o Hardit Singh S/o Bakshi Ram 80/337 share, Ujjager Singh S/o Baldev Singh S/o Smt. Shiri Kaur 4/337 share
			(2) Humaun Pur H.B. No.179	3//14	Private	Agriculture	0-6	0.0152	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				17/2	Private	Agriculture	1-12	0.0810	Sarup Singh S/o Budh Ram S/o Matabaksh
				18/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				17/1	Private	Agriculture	1-9	0.0734	Sukhbir Singh-jasbir Singh Ss/o Jagtar Singh S/o Hansraj equal shares
				23/1	Private	Agriculture	0-7	0.0177	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				23/2	Private	Agriculture	1-10	0.0759	Sukhbir Singh-jasbir Singh Ss/o Jagtar Singh S/o Hansraj equal shares
				24	Private	Agriculture	1-3	0.0582	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				26	Private	Agriculture	1-3	0.0582	Sukhbir Singh-jasbir Singh Ss/o Jagtar Singh S/o Hansraj equal shares
				12//3	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				7	Private	Agriculture	2-12	0.1316	Bahadur Singh S/o Amar Singh S/o Sarupa 144/431 share, Smt. Meena Kumari W/o Virender Kumar S/o Vishnu 287/2155 share, Smt. Sarwanjit Kaur W/o Hardiyal Singh S/o Jaswant Singh 574/2155 share, Smt. Neelam W/o Vijay Kumar 574/2155
				8	Private	Agriculture	2-1	0.1037	Amar Singh S/o Sarupa S/o Hamelu 126/2521 share, Hari
				12/1	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				12/2	Private	Agriculture	1-11	0.0784	
				19/1	Private	Agriculture	3-3	0.1594	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				22/2/1	Private	Agriculture	0-16	0.0405	Singh S/o Sarupa 409/2521 share, Jagga Singh S/o Sarupa 67/2521 share, Angrejo Devi D/o Mehar Singh 33/2521 share, Balkar Singh S/o Karnail Singh S/o Hamelu 221/2521 share, Jagtar Singh S/o Karnail Singh S/o Hamelu 138/2521 share, Baljinder Singh S/o Hardit Singh 82/2521 share, Bahadur Singh S/o Amar Singh 136/2521 share, Satpal Singh S/o Amar Singh 105/2521 share, Gurpal Singh S/o Amar Singh 137/2521 share, Smt. Charan Kaur D/o Sarupa 125/2521 share, Surjit Singh S/o Hari Singh 21/2521 share, Amrik Singh S/o Hari Singh 21/2521 share, Jaswinder Singh S/o Hari Singh 21/2521 share, Jaswinder Singh S/o Ram kishan 14/2521 share, Dalbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Ramkishan 337/2521 share, Dalvinder Singh S/o Gurmeet Singh 138/2521 share, Maninder Singh S/o Gurmeet Singh 138/2521 share, jagtar Singh S/o Ramkishan 92/2521 share, Bhag Singh-Jasram Singh-Narmail Singh Ss/o Jeet Singh S/o Sadhu 33/2521 share
				22/2/3	Private	Agriculture	0-12	0.0304	
				13	Private	Agriculture	2-10	0.1265	Hansraj S/o Jagir Singh S/o Norata
				18	Private	Agriculture	2-8	0.1214	
				23/1	Private	Agriculture	1-4	0.0607	
				23/2/1	Govt.	Non-Agriculture	0-1	0.0025	Haryana Govt.
				23/3	Private	Agriculture	0-1	0.0025	Balbir Singh S/o Ramkishan S/o Nanak
				17//2/1	Govt.	Non-Agriculture	0-2	0.0051	Haryana Govt.
				2/2	Private	Agriculture	2-5	0.1138	Manmohan Singh S/o Dalip Singh S/o Baru R/o Mast Pur
				3/1	Private	Agriculture	1-11	0.0784	Smt. Anuradha W/o Satpal S/o Hari Chand 131/154 share, Smt. Jaswant Kaur W/o Chetan Singh S/o jaswant Singh 23/154 share
				3/2	Govt.	Non-Agriculture	0-13	0.0329	Haryana Govt.
				3/3	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Jai Singh S/o Ramkishan S/o Nanak
				9/1	Private	Agriculture	0-19	0.0481	Smt. Anuradha W/o Satpal S/o Hari Chand 131/154 share, Smt. Jaswant Kaur W/o Chetan Singh S/o jaswant Singh 23/154 share
				9/2	Private	Agriculture	1-5	0.0632	Shayam Singh S/o Ramkishan S/o Nanak

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				10	Private	Agriculture	2-8	0.1214	Satbir Singh-Gurpreet Singh Ss/o Manmohan Singh S/o Dalip Singh equal share R/o Mast Pur
				11	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Sukhbir Singh-jasbir Singh Ss/o Jagtar Singh S/o Hansraj equal share
				12/1	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Shayam Singh S/o Ramkishan S/o Nanak
				19/1	Private	Agriculture	0-11	0.0278	Balkar Singh-jasbir Singh-Rashpal Singh Ss/o & Smt. Jai Kaur Wd/o Raghubir Singh S/o Ramkishan four equal share
				19/2	Private	Agriculture	1-12	0.0810	Jagtar Singh-Avtar Singh-jasminder Singh Ss/o Ramkishan S/o Sadhu three equal share
				22	Private	Agriculture	2-8	0.1214	
			(3) Matehdi Shekhan H.B. No. 256	29//13/1	Private	Agriculture	1-10	0.0759	Gurjit Singh-Naresh Kumar S/o Ram Nath S/o Lal Singh equal shares
				13/2	Private	Agriculture	1-10	0.0759	Punit Singh S/o Adopted Son Heri Singh S/o Munshi Ram 1/3 share, Gangan Deep Singh S/o Joginder Singh 1/3 share, Om Parkash S/o Buta Ram 1/3 share
				13/3	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Haryana wakf Board in the colume of cultivation Ishar Singh S/o Hari Singh S/o Doult Singh ½ share, Amir Chand S/o Hira Nand ½ share tenant
				14/1	Private	Agriculture	0-1	0.0025	
				18	Private	Agriculture	0-4	0.0101	Haryana wakf Board in the colume of cultivation Ved Parkash S/o Ishar Singh ½ share, Gur Charan Singh S/o Joginder Singh ½ share, tenant
			(4) Landyal i H.B. No. 264	1438/336	Private	Agriculture	0-11	0.0278	Surjit Singh-Naresh Kumar S/o Ramnath S/o Lal Singh equal share
				337	Private	Agriculture	0-11	0.0278	
				339	Private	Agriculture	0-17	0.0430	Sahab Singh-Ran Singh S/o Pritam Singh S/o Biru equal shares 9/10 share, Smt. Sahabo & Smt. Jeeto & Gurmeet Kaur D/o Pritam Singh S/o Biru equal shares 1/10 share,
				340	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				341	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				350	Private	Agriculture	1-16	0.0906	
				352	Private	Agriculture	0-19	0.0481	Sahab Singh S/o Pritam Singh S/o Biru 1101/3780, Ran Singh S/o Pritam Singh S/o Biru 1701/3780 share, Smt. Sahabo & Smt. Jeeto & Gurmeet D/o Pritam e.s. 1/2 share,
				353	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Sahab Singh-Ran Singh S/o Pritam Singh S/o Biru equal

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									shares 9/10 share, Smt. Sahabo & Smt. Jeeto & Gurmeet Kaur D/o Pritam Singh S/o Biru equal shares 1/10 share,
				362	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Karm Singh-Prem Singh Allis Gurnam Singh S/o Kapoora Ram two equal shares R/o Dhanoda
				363	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				365	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				366	Private	Agriculture	1-0	0.0506	
				367	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Pal Singh S/o Gandha Singh S/o Baru 1/5 share, Dil Preet Singh S/o Mahinder Singh S/o Payara Singh 1/100 share, Love Preet Singh -Jas Preet Singh Ss/o & Gurmeet Kaur Wd/o Satinder Singh in three e.s. 1/20 share, Sukhdev Singh S/o Puran Singh S/o Bir Singh 111/300 share, R/o Balana, Smt. Harmeet Kaur Wd/o & Talvinder Singh-Virender Singh Ss/o Hakem Singh S/o Puran Singh in three e.s. 111/300 share R/o Balana
				368	Private	Agriculture	0-19	0.0481	Karma Singh-Prem Singh Allis Gurnam Singh S/o Kapoora Ram two equal shares R/o Dhanoda
				375	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				376	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Sukhdev Singh-Karnail Singh S/o Bachan Singh S/o Puran Singh equal shares
				377	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				379	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				380	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				381	Private	Agriculture	0-18	0.0455	
				1439/382	Govt.	Non-Agriculture	0-2	0.0051	Haryana Govt.
				1440/382	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Sukhdev Singh-Karnail Singh S/o Bachan Singh S/o Puran Singh equal shares
				425	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Ronki S/o Kartar Singh S/o Biru
				1746/426	Private	Agriculture	1-0	0.0506	
				443	Panchayat	Agriculture	0-15	0.0379	Civil Panchayat
			(5) Sakraon H.B. No. 265	7//19	Private	Agriculture	0-11	0.0278	Garja Ram Allies Garja- Joyti Ram Allies Joyti-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares ¾ shares, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares ¼ share
				22/1	Private	Agriculture	0-0.25	0.0006	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares ¾ share, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-
				22/2	Private	Agriculture	2-10	0.1265	
				9//1	Private	Agriculture	1-1	0.0531	
				2/1	Private	Agriculture	0-18	0.0455	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares ¼ share
				2/2	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Garja Ram Allies Garja- Joyti Ram Allies Joyti-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares
				9/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	
				9/2	Private	Agriculture	0-4	0.0101	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares ¾ share, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares ¼ share
				10	Private	Agriculture	1-14	0.0860	
				11	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				12	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Garja Ram Allies Garja- Joyti Ram Allies Joyti-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares
				19	Private	Agriculture	2-4	0.1113	
				20	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares ¾ share, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares ¼ share
				21	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				22	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Gurdev Singh-Baldev Singh Ss/o Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur Singh S/o Labh Singh S/o Sardha Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				18//1/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass Ss/o Jiwan Ram S/o Magal three equal shares ¾ share, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares ¼ share
				1/2	Private	Agriculture	0-2	0.0051	Gurdev Singh-Baldev Singh Ss/o Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur Singh S/o Labh Singh S/o Sardha Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				9	Private	Agriculture	1-8	0.0708	
				10/1	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				10/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass Ss/o & Parwar Kaur D/o Parmeshawari Wd/o Jiwan Ram S/o Magal four equal shares 4/5 share R/o Landyali, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh Ss/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares 1/5 share,
				12	Private	Agriculture	0-12	0.0304	Gurdev Singh-Baldev Singh S/o Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur
				19	Private	Agriculture	0-1	0.0025	
				20/1	Private	Agriculture	2-5	0.1138	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Singh S/o Labh Singh S/o Sardha Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				20/2	Private	Agriculture	2-12	0.0810	Garja Ram-Joyti Ram-Garib Dass S/o & Parwar Kaur D/o Parmeshawari Wd/o Jiwan Ram S/o Magal four equal shares 4/5 share R/o Landyali, Smt. Chameli Devi Wd/o & Natha Ram-Miha Singh-Nrimal Singh-Gurmeet Singh-Sinha Singh-Hermesh Singh S/o Surja Ram S/o Jiwan Singh Seven equal shares 1/5 share
				21/1	Private	Agriculture	1-16	0.0911	Gurdev Singh-Baldev Singh S/o Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur Singh S/o Labh Singh S/o Sardha Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan
				21/2	Private	Agriculture	2-4	0.1113	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				25	Private	Agriculture	0-6	0.0152	Gurdev Singh-Baldev Singh S/o
				20//5	Private	Agriculture	1-0	0.0506	Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur Singh S/o Labh Singh S/o Sardha Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				6	Private	Agriculture	1-8	0.0708	
				15	Private	Non-Agriculture	2-0	0.1012	Om Parkash S/o Butta Ram S/o Jai Ram 1/3 share, Gagandeep Singh S/o Joginder Singh S/o Butta Singh 1/3 share, Punit Singh Adopted S/o Hari Singh S/o Munshi 1/3 share
				16	Private	Non-Agriculture	0-18	0.0455	Om Parkash S/o Butta Ram S/o Jai Ram 535/1608 share, Gagandeep Singh S/o Joginder Singh S/o Butta Singh 535/1608 share, Punit Singh Adopted S/o Hari Singh S/o Munshi 269/804 share
				25	Private	Non-Agriculture	2-0	0.1012	
				26	Private	Agriculture	1-2	0.0557	
				21//1/1	Private	Agriculture	1-0	0.0506	Gurdev Singh-Baldev Singh S/o
				½	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Ranjeet Singh S/o Punnu equal shares 653/4089 share, Sukhdev S/o Sardha Ram S/o Punnu Ram 1306/12267 share, Bahadur Singh S/o Labh Singh S/o Sardha
				10/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	
				10/2	Private	Agriculture	0-5	0.0126	
				11	Private	Agriculture	1-1	0.0531	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Ram 1306/12267 share, Binder Singh S/o Sardha Ram S/o Punnu 1307/12267 share, Smt. Gurdevi Mother & Smt. Manjeet Kaur Wd/o & Dilbag Singh-Satbir Singh S/o Jagtar Singh S/o Gurdev Singh four equal shares 478/4089 share, Surinder Singh S/o Gurdev Singh S/o Ranjeet Singh 478/4089 share, Jasbinder Singh-Nirmal Singh-Amrik Singh S/o Baldev Singh three equal shares 956/4089 share, Raj Kaur Wd/o & Mahinder Kaur-Sinder Kaur D/o & Chetan Singh-Dhana Singh-Hakam Singh-Avtar Singh S/o Hari Chand S/o Ramdiya Seven equal shares 4571/98136 share, Jarnail kaur Wd/o & Saloniya D/o & Gurtej Singh S/o Balkar Singh S/o Hari Chand three equal shares 653/98136 share
				20	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Diddar Singh-Gajjan Singh-Gurtej Singh-Gurpal Singh S/o Mada Singh S/o Basant Singh four equal shares
				21	Private	Agriculture	2-4	0.1113	
				30//1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Pritam Singh-Surmukh Singh-Nasib Singh S/o Puran Singh S/o Mahtab Singh three equal shares $\frac{3}{4}$ share R/o Khaspura, Payara Singh-Bhupinder Singh S/o Teja Singh S/o Ajamer Singh two equal shares $\frac{1}{4}$ share
				10/1	Private	Agriculture	0-5	0.0126	Sarwan Allies Sarwan Singh-Charana Allies Charan Singh-Kesar Allies Kesar Singh S/o Jaimal Singh S/o Hoshiyar Singh three equal shares
				10/2	Govt.	Non-Agriculture	0-11	0.0278	Haryana Govt.
				10/3	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Sarwan Allies Sarwan Singh-Charana Allies Charan Singh-Kesar Allies Kesar Singh Ss/o Jaimal Singh S/o Hoshiyar Singh three equal shares
				11	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Gurnaib Singh-Bahadur Singh-Labh Singh-Kawaljeet Singh S/o Dalip Singh S/o Jawala Singh four equal shares R/o Khasapur
				20	Private	Agriculture	0-3	0.0076	
				31//5/1	Private	Non-Agriculture	2-1	0.1037	Om Parkash S/o Butta Ram S/o Jai Ram 1/3 share, Gagandeep Singh S/o Joginder Singh S/o Butta Singh 1/3 share, Punit Singh Adopted S/o Hari Singh S/o Munshi 1/3 share

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				5/2	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Pritam Singh-Surmukh Singh-Nasib Singh S/o Puran Singh S/o Mahtab Singh three equal shares ¾ share R/o Khaspura, Payara Singh-Bhupinder Singh S/o Teja Singh S/o Ajamer Singh two equal shares ¼ share, dar 2 share,Haryana 12 share,
				6/2/2	Private	Agriculture	1-0	0.0506	Bahadur Singh S/o Dalip Singh S/o Jawala Singh
				15/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				15/2	Private	Agriculture	1-12	0.0810	
				16/1	Private	Agriculture	2-8	0.1214	Gurnaib Singh-Bahadur Singh-Labh Singh-Kawaljeet Singh S/o Dalip Singh S/o Jawala Singh four equal shares R/o Khasapur
				25/1	Private	Agriculture	1-10	0.0759	Pritam Singh-Surmukh Singh-Nasib Singh S/o Puran Singh S/o Mahtab Singh three equal shares ¾ share R/o Khaspura, Payara Singh-Bhupinder Singh S/o Teja Singh S/o Ajamer Singh two equal shares ¼ share, dar 2 share,Haryana 12 share,
				25/2	Private	Agriculture	0-5	0.0126	Bahadur Singh S/o Dalip Singh S/o Jawala Singh
				25/3	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Gurnaib Singh-Bahadur Singh-Labh Singh-Kawaljeet Singh S/o Dalip Singh S/o Jawala Singh four equal shares R/o Khasapur
				32//4/1	Private	Agriculture	0-1	0.0025	Gopal Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram ½ share, Smt. Shanti Devi D/o Lal Chand S/o Assa Ram ¼ share, Smt. Sudesh Wd/o & Shipra D/o Sudshan Kumar equal shares ¼ share
				4/2	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Amir Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana R/o Sahanewal Distt. Ludhiyana,Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				4/3	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Thakur Dass S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram R/o Sahanewal Distt. Ludhiyana,Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				4/4	Private	Agriculture	0-12	0.0304	Attar Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram R/o Sahanewal Distt. Ludhiyana,Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				4/5	Private	Agriculture	0-5	0.0126	Doulat Ram S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram R/o Sahanewal Distt. Ludhiyana,Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				5/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	
				5/2	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Attar Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram R/o Sahanewal Distt. Ludhiyana,Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				5/3	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Thakur Dass S/o Sewa Ram S/o

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Kahana Ram R/o Sahanawal Distt. Ludhiyana, Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				5/4	Private	Agriculture	0-6	0.0152	Amir Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana R/o Sahanawal Distt. Ludhiyana, Smt. Sudesh Wd/o Sudshan Kumar Tenant
				5/5	Private	Agriculture	0-4	0.0101	Gopal Chand S/o Sewa Ram S/o Kahana Ram ½ share, Smt. Shanti Devi D/o Lal Chand S/o Assa Ram ¼ share, Smt. Sudesh Wd/o & Shipra D/o Sudshan Kumar equal shares ¼ share
				5/6	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Jarnail Singh-Labh Singh S/o
				6/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Jagir Singh S/o Sampuran Singh two equal shares 1/6 share, Talvinder Singh S/o Gurmail Singh S/o Jagir Singh 1/3 share, Iqbal Singh S/o Labh Singh S/o Jagir Singh ¼ share, Smt. Paramjeet Kaur Wd/o & Gurjant Singh S/o & Amanjeet Kaur D/o Surinder Singh S/o Jarnail Singh three equal shares 1/12 share, Avtar Singh-Hakam Singh S/o Jarnail Singh S/o jagir Singh two equal shares 1/6 share
				6/2	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Pritam Singh-Surmukh Singh-Nasib Singh S/o Puran Singh S/o Mahtab Singh three equal shares ¾ share R/o Khaspura, Payara Singh-Bhupinder Singh S/o Teja Singh S/o Ajamer Singh two equal shares ¼ share, dar 2 share, Haryana 12 share,
				7	Private	Agriculture	1-12	0.0810	Payara Singh S/o Bud Singh S/o Sunder Singh
				14	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Jarnail Singh-Labh Singh S/o
				15	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Jagir Singh S/o Sampuran Singh two equal shares 2/3 share, Talvinder Singh S/o Gurmail Singh S/o Jagir Singh 1/3 share
				16	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Meenaxy D/o Ranapartap W/o Vipam Kumar
				17/1	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Suman kumar S/o Ranapartap S/o Kundan Lal ½ share, Rohit Kumar S/o Chandershaker S/o Ranjeet Ram ½ share
				24	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Jarnail Singh-Labh Singh S/o
				25	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Jagir Singh S/o Sampuran Singh two equal shares 2/3 share, Tavinder Singh S/o Gurmail Singh S/o Jagir Singh 1/3 share
				45//4/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				4/2	Private	Agriculture	0-2	0.0051	
				5	Private	Agriculture	2-2	0.1063	
				6	Private	Agriculture	1-3	0.0582	
				7/1	Private	Agriculture	0-13	0.0329	
				7/2	Private	Agriculture	1-10	0.0759	
			(6)	3//7/2	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
			Naggal H.B. No. 280						Devidayal ½ share, Naresh kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Modal Town A/City ½ share
				7/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	Ishwar Dass S/o Gulab Chand S/o Jawala Singh, Taru S/o Ruliaya S/o Tidda Tenant
				14/2	Private	Agriculture	1-3	0.0582	Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o Devidayal ½ share, Naresh kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Madal Town A/City ½ share
				14/3	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Smt. Maya Devi Wd/o & Krishanawanti-Kartarwanti D/o Hari Singh three equal shares 59/315 share, Smt Kamlesh-Sudesh-Sushama-Sadhana-Rajani D/o & Smt. Bidhwanti Wd/o Hansraj S/o Hari Singh Six equal shares 15/315 share, Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o Devidayal 127/315 share, Satish kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Madal Town A/City 114/315 share
				15/1	Private	Agriculture	0-9	0.0228	
				17/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o Devidayal 1/2 share, Satish kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Madal Town A/City 1/2 share
				17/2	Private	Agriculture	1-14	0.0860	Om Parkash S/o Butta Ram S/o Jai Ram & Gagandeep Singh S/o Jaginder S/o Butta Ram & Pritam Singh S/o Hari Singh S/o Munshi Ram in three e.s.
				18	Private	Agriculture	0-12	0.0304	
				23	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Gurginder Singh S/o Dharmjeet Singh S/o Sampuran Singh R/o Sanoli Distt. Mohali
				24	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o Devidayal 1/2 share, Satish kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Madal Town A/City 1/2 share
				9/3	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Smt. Hukam Devi D/o ¼ share, Smt. Shimla Devi-Kamlesh Kumari D/o Bhagwan Devi Wd/o Tara Chand two equal shares ¾ share
				4	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Darshan Lal S/o Ramlubhaya S/o Devidayal 1/2 share, Satish kumar S/o Krishan Lal S/o Ramlubhaya R/o Madal Town A/City 1/2 share
				7/1	Private	Agriculture	1-9	0.0734	
				7/2	Private	Agriculture	0-15	0.0379	Sadhu Ram S/o Puran S/o Mattu
				13/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Kalpana W/o Rajinder S/o Hari Singh R/o H.No 79 Sector-

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									7, Chandigarh 3/68 share, Varun S/o Phool Chand S/o Shankar Dass 65/68 share
				13/2	Private	Agriculture	1-8	0.0708	Subinath-Nathu Ram-Karm Singh-Baljeet Ram S/o Sadhu S/o Puran Chand four equal shares
				14	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				18/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Sadhu Ram S/o Puran S/o Mattu
				18/2	Private	Agriculture	1-15	0.0860	Smt. Shanti Devi W/o Hansraj S/o Doulat Ram
				19	Private	Agriculture	0-8	0.0202	
				22	Private	Agriculture	1-11	0.0784	Smt. Neelam Rani W/o Manoj Kumar 1/9 share, Manoj Kumar S/o Gain Chand 1/9 share, Vashudev S/o Babu Ram 1/9 share & Karnail Singh S/o Hazara Singh S/o Ram Krishan 1/3 share, Vibhor S/o Rajinder Kumar 1/3 share Dar 505/1287 share, Smt. Sukantala Rani D/o Pirthi Raj S/o Sahibditta 782/1287 share
				23/1	Private	Agriculture	0-9	0.0228	
				23/2	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Baldev Raj S/o Tirath Ram S/o Ramlal ½ share, Munal S/o Baldev Raj S/o Tirath Ram ½ share,
				17/1/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Amar Singh S/o Vajir Singh S/o Gulab Singh
				3	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Tejinder Mohan Singh Librahan-Sanjeew Mohan Singh Librahan S/o Lala. Ganesh Mal equal share
				8/1	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Sahab Singh S/o Bhagwan Singh S/o Narayan Singh 1/6 share, Bahadur Singh-Manpreet Singh-Mandeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Bhagwan Singh four equal shares 1/8 share, Sudesh Kumari Wd/o & Roji-Monika D/o Jagtar Singh S/o Bhagwan Singh three equal shares 1/6 share, Smt. Nisha Gupta D/o Rajeshwar Parashad 1/18 share, Joginder Singh s/o Vajir Singh 1/18 share, Smt. Kiran Bala D/o Ramdhan 1/18 share, Surinder Singh Allies Surinder Pal Singh S/o Sahab Singh S/o Bhagwan Singh 1/6 share, Smt. Mahinder Kaur Wd/o Amarjeet Singh S/o Bhagwan Singh 5/24 share
				8/2	Private	Agriculture	0-18	0.0455	Tejinder Mohan Singh Librahan-Sanjeew Mohan Singh Librahan S/o Lala. Ganesh Mal equal share
				9/1	Private	Agriculture	0-11	0.0278	Harvinder Kumar S/o & Smt. Kiran Bala Wd/o & Neha D/o

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Gulshan Kumar in three e.s.
				9/2	Private	Agriculture	0-8	0.0202	Rajinder Kumar S/o Munshi Ram S/o Ramlal
				9/3	Private	Agriculture	1-1	0.0531	Ravinder Kumar Allies Gurvinder Kumar S/o Munshi Ram S/o Ramlal
				12/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Harnam Singh S/o Vajir Singh S/o Gulab Singh
				12/2	Private	Agriculture	0-15	0.0379	Sahab Singh S/o Bhagwan Singh
				13	Private	Agriculture	1-6	0.0658	S/o Narayan Singh 1/6 share, Bahadur Singh-Manpreet Singh-Mandeep Singh S/o Amarjeet Singh S/o Bhagwan Singh three equal shares 1/8 share, Sudesh Kumari Wd/o & Roji-Monika D/o Jagtar Singh S/o Bhagwan Singh three equal shares 1/6 share, Smt. Nisha Gupta D/o Rajeshwar Parashad 1/18 share, Joginder Singh s/o Vajir Singh 1/18 share, Smt. Kiran Bala D/o Ramdhan 1/18 share, Surinder Singh Allies Surinder Pal Singh S/o Sahab Singh S/o Bhagwan Singh 1/6 share, Smt. Mahinder Kaur Wd/o Amarjeet Singh S/o Bhagwan Singh 5/24 share
				18/2	Private	Agriculture	0-2	0.0051	Amrik Singh S/o Kartar Singh
				19/1	Private	Agriculture	2-4	0.1113	S/o Sarup Singh
				19/2	Private	Agriculture	2-3	0.1088	Harnam Singh S/o Vajir Singh S/o Gulab Singh
				20	Private	Agriculture	0-1	0.0025	Sahab Singh-Harvir Singh-Pritam Singh-Harpal Singh S/o & Smt. Kartar Kaur Wd/o Narjan Singh S/o Vajir Singh five equal shares
				21/1	Private	Agriculture	0-0.25	0.0006	Ajamer Singh-Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh equal shares 4/9 share, Nirmal Singh-Satnam Singh S/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh equal shares 1/6 share, Saran Kaur-Harbhajan Kaur-Harbans Kaur D/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh three equal shares 1/6 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 2/9 share
				21/2	Private	Agriculture	0-17	0.0430	Ajamer Singh-Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh equal shares 68/1020 share, Nirmal Singh-Satnam Singh S/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh equal shares 306/340 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 1/30 share

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				22/1/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	Ajamer Singh-Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh equal shares 4/9 share, Nirmal Singh-Satnam Singh S/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh equal shares 1/6 share, Saran Kaur-Harbhajan Kaur-Harbans Kaur D/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh three equal shares 1/6 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 2/9 share
				22/1/2	Private	Agriculture	0-19	0.0481	Ajamer Singh-Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh equal shares 68/1020 share, Nirmal Singh-Satnam Singh S/o Mahatab Singh S/o Sunder Singh equal shares 306/340 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 1/30 share
				22/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Shanti Devi W/o Mela Ram S/o Ami Chand
				29//1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Ajamer Singh-Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh equal shares 2/3 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 1/3 share
				2	Private	Agriculture	1-2	0.0557	Barhamsarup-Rakesh S/o Mela Ram S/o Ami Chand equal share
				10/1	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Ajamer Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh share 1/2 share, Surjan Singh S/o Keshar Singh S/o Mohar Singh 1/2 share
				10/2	Private	Agriculture	0-14	0.0354	Mahavir Singh S/o Kasher Singh S/o Mohar Singh
				11/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				11/2	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Gurmukh Singh S/o Manni Ram S/o Mahatab Singh
				29//19	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Devinder Singh S/o Vajir Singh S/o Harnam Singh
				20/1	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Vajir Singh S/o Harnam Singh S/o Prem Singh
				20/2/1	Private	Non-Agriculture	0-3	0.0076	Smt. Jiwanbai-Kartar Kaur-Dalip kaur D/o Gurmukh Singh S/o Manna Singh three equal shares 1/3 share, Tarlochan Singh-Ajit Singh-Jaginder Singh-Khadad Singh S/o Mahatab Singh four equal shares 1/3 share, Jameeyat Singh-Harpal Singh-Narender Singh S/o Inder Singh three equal shares 1/3 share
				20/2/2	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Tarlochan Singh S/o Mahatab Singh S/o Manna Singh
				21/1	Private	Agriculture	1-12	0.0810	Smt. Usha W/o Harikrishan S/o Amar Nath

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				21/2	Private	Agriculture	1-10	0.0759	Mahinder Pal Singh S/o Manohar Singh S/o Harnam Singh
				21/3	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Devinder Singh S/o Vajir Singh S/o Harnam Singh
				39//6	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Harikrishan S/o Amar Nath S/o Ralla Ram 9/13 share, Usha Devi W/o Harikrishan S/o Amar Nath 4/13 share
				26	Private	Agriculture	0-13	0.0329	Harikrishan S/o Amar Nath S/o Ralla Ram,
				40//1/1	Private	Agriculture	1-1	0.0531	Mahinder Pal Singh S/o Manohar Singh S/o Harnam Singh
				1/3	Private	Agriculture	0-17	0.0430	Kharak Singh S/o Harnam Singh
				10	Private	Agriculture	2-4	0.1113	S/o Prem Singh
				53//17	Private	Agriculture	0-15	0.0379	Ranjeet Singh S/o Vajir Singh S/o Narata Singh 37 share, Haryana Govt. 12 share,
				64//3/2	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Mushtraka Malkan in the Colum of Cultivation Govindar S/o Beli Ram Garmurusi
				4/1	Private	Agriculture	0-1	0.0025	
				8/2	Private	Agriculture	1-13	0.0835	Surjeet Singh S/o Gurdit Singh S/o Sant Singh
				13	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Surjeet Singh S/o Gurdit Singh S/o Sant Singh 1/3 share, Smt Narajan Kaur Wd/o & Smt. Jagtar Kaur-Gurcharan Kaur-Gurvinder Kaur-Surinder Kaur D/o & AmarJeet Singh S/o Hazura Singh her Six equal shares 1/3 share, Pardhan Singh S/o Harnam Singh 1/12 share, Avtar Singh S/o Harnam Singh 1/12 share, Rajinder Singh S/o Harnam Singh 1/12 share, jasbir Singh S/o Harnam Singh 1/12 share
				14	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Mushtraka Malkan
				18	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Gurmit Singh S/o Surmukh Singh 947/1729 share, Charnjit Singh S/o Surmukh Singh 306/1729 share, Amrik Singh S/o Ladha Ram 254/1729 share, Smt. Baljindar Kaur W/o Gurmit Singh 80/1729 share, Hercharan Singh S/o Ladha Ram 4/1729 share, Smt. Savita Koshal W/o Chandarshekar S/o Raj Kumar 138/1729 share,
				23	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Jagdish Chand S/o Harnam Dass 53/1378 share, Prem Nath S/o Harnam Dass 365/1378 share, Mam Raj S/o Kundan 172/1378 share, Balwant Singh S/o Kundan 68/1378 share, Ranjit Singh S/o Kundan 85/1378 share, Lal Chand S/o Kundan 153/1378

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									share, Naresh Devi W/o Baldev Singh S/o Kartara Ram 49/1378 share, Gurvindar Kumar S/o Munshi 97/2756 share, Manv S/o Ravindar Kumar 97/2756 share, Shamshare Singh S/o Sadhu Singh 24/1378 share, Ravi Kumar-Tony Kumar Ss/o Subhash Chandar 312/1378
				80	Panchayat	Non-Agriculture	2-0	0.1012	Panchayat Deh.
				81	Panchayat	Non-Agriculture	1-2	0.0557	Shaymlat Deh.
				94	Panchayat	Agriculture	2-0	0.1012	Shaymlat Patti, Vazira Hasab Surat Arazi Khewat & Deh, Kulwant Singh S/o Arjan Singh Tenant
				96	Panchayat	Non-Agriculture	0-2	0.0051	Panchayat Deh.
			(7) Hasanpur H.B. No. 279	11//7/1	Govt.	Non-Agriculture	0-15	0.0379	Haryana Govt.
				7/2	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Harbans Singh-Kulwant Singh S/o Uajgar Singh S/o Sadhu
				14/1	Govt.	Non-Agriculture	1-12	0.0809	Haryana Govt.
				14/2	Private	Agriculture	1-0	0.0506	Harbans Singh-Kulwant Singh
				17/1	Private	Agriculture	1-8	0.0708	S/o Uajgar Singh S/o Sadhu
				17/2	Govt.	Non-Agriculture	2-0	0.1012	Haryana Govt.
				24/2	Private	Agriculture	1-12	0.0810	Harbans Singh-Kulwant Singh S/o Uajgar Singh S/o Sadhu
				23//4/1	Govt.	Non-Agriculture	2-0	0.1012	Haryana Govt.
				7/2/1	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Harbans Singh-Kulwant Singh S/o Uajgar Singh S/o Sadhu
				8	Govt.	Non-Agriculture	1-17	0.0936	Haryana Govt.
				9/1	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh
				13/1	Private	Agriculture	2-2	0.1063	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 729/2578 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh two e.s. 729/2578 share, Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 800/2578 share, Smt. Gurmail Kaur widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. 160/1289 share
				13/2	Govt.	Non-Agriculture	1-18	0.0961	Haryana Govt.

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				14/1	Govt.	Non-Agriculture	0-4	0.0101	
				17/1	Govt.	Non-Agriculture	0-2	0.0051	
				18	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 729/2578 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh two e.s. 729/2578 share, Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 800/2578 share, Smt. Gurmail Kaur widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. 160/1289 share
				23	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				26//3	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh ½ share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh ½ share
				8	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh ½ share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh ½ share
				13	Private	Agriculture	1-17	0.0936	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 3/20 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 7/20 share Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 1/4 share Smt. Gurmail Kaur widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. ¼ share
				18	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 3/20 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 7/20 share Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 1/4 share Smt. Gurmail Kaur widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. ¼ share
				23	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				36//3	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 3/20 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 7/20 share Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 1/4 share Smt. Gurmail Kaur

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. ¼ share
				8	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Bhag Kaur w/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 3/20 share, Gurmeet Singh-Charanjeet Singh S/o Surmukh Singh S/o Garja Singh 7/20 share Labh Singh-Bhag Singh S/o Hakam Singh S/o Karoda Singh two e.s. 1/4 share Smt. Gurmail Kaur widow & Gurcharan Singh S/o Jaspal Singh S/o Sher Singh two e.s. ¼ share
				13/2	Private	Agriculture	2-14	0.1366	Ishsam Singh-Hukam Singh-Dharm Singh S/o Jagat Ram S/o Daya Ram e.s. R/o Kalera
				14	Private	Agriculture	1-18	0.0961	Smt. Maya Devi-Karnailo-Labho-Amriko Daughters & Karnail Singh-Satpal-Jaipal-Amrik-Shyma Lal S/o Jeet Singh S/o Nathu in Nine e.s. 9/10 share, Rajat S/o Gul Labh S/o Jeet Singh 1/10 share
				17/1	Private	Agriculture	1-14	0.0860	
				18	Private	Agriculture	0-12	0.0304	Ishsam Singh-Hukam-Dharm Singh S/o Jagat Ram S/o Daya Ram e.s. Kalera
				17/2	Private	Agriculture	2-6	0.1164	
				23	Private	Agriculture	0-7	0.0177	
				24	Private	Agriculture	2-15	0.1391	
				25	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Smt. Usha Rani Widow & Pardeep Kumar S/o Sunil Kumar S/o Shiv Lal two e.s.
				40//3	Private	Agriculture	0-14	0.0354	Ishsam Singh-Hukam Singh-Dharm Singh S/o Jagat Ram S/o Daya Ram e.s. Kalera
				4	Private	Agriculture	0-16	0.0405	
				5	Private	Agriculture	0-16	0.0405	Smt. Usha Rani Widow & Pardeep Kumar S/o Sunil Kumar S/o Shiv Lal two e.s.
				6	Private	Agriculture	0-9	0.0228	
				7	Private	Agriculture	1-9	0.0734	Ishsam Singh-Hukam Singh-Dharm Singh S/o Jagat Ram S/o Daya Ram e.s. Kalera
				48	Panchayat	Non-Agriculture	3-7	0.1695	Panchayat Deh.
				49	Panchayat	Non-Agriculture	0-5	0.0126	Panchayat Deh.
			(8) Segti H.B. No. 306	6//7	Private	Agriculture	2-4	0.1113	Krishan lal S/o Chetan Dass ½ share, Smt. Sarla Rani Widow & Amit Kumar-Rohit kumar-Ankit Kumar S/o Ramlal three e.s ½ share,
				8	Private	Agriculture	1-0	0.0506	
				13	Private	Agriculture	4-16	0.2429	
				14	Private	Agriculture	3-0	0.1518	
				18	Private	Agriculture	7-12	0.3845	
				22/1	Private	Agriculture	0-2	0.0051	
				22/2	Private	Agriculture	4-19	0.2505	
				19	Private	Agriculture	0-17	0.0430	Smt. Rewti Wd/o Gopi Chand Krishan lal S/o Chetan Dass ½ share, Smt. Sarla Rani Widow & Amit Kumar-Rohit kumar-Ankit
				23/1	Private	Agriculture	2-10	0.1265	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Kumar S/o Ramlal three e.s ½ share,
				23/2/1/1	Govt.	Non-Agriculture	0-12	0.0304	Haryana Govt.
				9//1/1	Govt.	Non-Agriculture	0-3	0.0076	Haryana Govt.
				2/1	Govt.	Non-Agriculture	3-6	0.1670	Haryana Govt.
				3/1	Govt.	Non-Agriculture	4-8	0.2226	Haryana Govt.
				9/1	Govt.	Non-Agriculture	5-4	0.2631	Haryana Govt.
				9/2	Govt.	Non-Agriculture	1-10	0.0759	Haryana Govt.
				11	Govt.	Non-Agriculture	4-5	0.2150	Haryana Govt.
				12/1	Govt.	Non-Agriculture	4-16	0.2429	Haryana Govt.
				19/2	Govt.	Non-Agriculture	0-15	0.0379	Haryana Govt.
				20	Govt.	Non-Agriculture	3-3	0.1594	Haryana Govt.
				20//12	Govt.	Non-Agriculture	1-7	0.0683	Haryana Govt.
				18/2	Govt.	Non-Agriculture	6-6	0.3188	Haryana Govt.
				19	Govt.	Non-Agriculture	3-0	0.1518	Haryana Govt.
				22	Govt.	Non-Agriculture	0-18	0.0455	Haryana Govt.
				23/1	Govt.	Non-Agriculture	7-16	0.3947	Haryana Govt.
				23/2	Govt.	Non-Agriculture	0-4	0.0101	Haryana Govt.
				24/1	Govt.	Non-Agriculture	0-10	0.0253	Haryana Govt.
				23//3	Govt.	Non-Agriculture	6-14	0.3390	Haryana Govt.
				4/1	Govt.	Non-Agriculture	1-10	0.0758	Haryana Govt.
				7/2	Govt.	Non-Agriculture	3-10	0.1769	Haryana Govt.
				8	Govt.	Non-Agriculture	4-13	0.2353	Haryana Govt.
				13/1	Govt.	Non-Agriculture	0-5	0.0126	Haryana Govt.
				13/2	Govt.	Non-Agriculture	0-8	0.0202	Haryana Govt.
				17/2	Govt.	Non-Agriculture	4-6	0.2176	Haryana Govt.
				18	Govt.	Non-Agriculture	0-19	0.0481	Haryana Govt.
				24	Govt.	Non-Agriculture	7-2	0.3592	Haryana Govt.
				32//4	Govt.	Non-	5-2	0.2580	Haryana Govt.

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
						Agriculture			
				5	Govt.	Non-Agriculture	2-6	0.1162	Haryana Govt.
				6	Govt.	Non-Agriculture	3-10	0.1769	Haryana Govt.
				7	Govt.	Non-Agriculture	3-0	0.1518	Haryana Govt.
				14	Govt.	Non-Agriculture	0-13	0.0329	Haryana Govt.
				15/1	Govt.	Non-Agriculture	1-8	0.0708	Haryana Govt.
				15/2/1	Govt.	Non-Agriculture	2-0	0.1012	Haryana Govt.
				18/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Smt. Darshana Rani W/o Satish Kumar , Smt. Renu W/o Bhart Bhushan, Smt. Poonam W/o Naresh Kumar three equal shares 5/7 share, Naresh Kumar S/o Assanand 2/7 share
				23/1/1	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Satish Kumar-Naresh Kumar-Suresh Kumar S/o Chhankandh Ram e.s
				23/1/2	Private	Agriculture	4-15	0.2403	Smt. Darshana Rani W/o Satish Kumar , Smt. Renu W/o Bhart Bhushan, Smt. Poonam W/o Naresh Kumar three equal shares 5/7 share, Naresh Kumar S/o Assanand 2/7 share
				23/2	Private	Agriculture	1-0	0.0506	Chuni Lal-Kavar Lal-Sunder Lal-Manohar Lal Sons & Smt. Sita Devi-Parvti Devi-Laxmi Devi D/o Bhagwan Dass e.s. 7/8 share, Ashok Kumar-Arun Kumar-Anil Kumar Sons & Smt. Aasha-Aruna-Anita Daughters & Smt. Surj Devi Wd/o Kundan Lal e.s. 1/8 share
				22/1/2	Private	Agriculture	0-10	0.0253	Subhash Kumar S/o Papti Parshad 345/1394 share, Lajja Ram-Hari Singh S/o Bakhtawar Singh 346/697 share, Satish Kumar-Naresh Kumar-Suresh Kumar S/o Chhankand Ram three e.s 105/1394 share, Satish Kumar S/o Aassnand 126/697 share,
				35//2	Private	Agriculture	4-10	0.2277	
				3	Private	Agriculture	4-15	0.2403	
				8	Private	Agriculture	0-10	0.0253	
				9/1/1	Private	Agriculture	1-7	0.0683	
				9/2	Private	Agriculture	3-9	0.1746	
				9/1/2	Private	Agriculture	1-11	0.0784	
			(9) Bishang arh H.B. No. 305	25//16	Private	Agriculture	6-19	0.3517	Assanand S/o Lakha Ram S/o Fateh Chand 94/261 share, Krishan Lal S/o Jiwan Dass S/o Lakha Ram 106/783 share, Lajja Ram-Hari Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Devidayal in two e.s. 26/261 share, Bachan Singh-Ram Gopal-Singh Ram-Jarnail Singh Ss/o Sadhu Ram S/o Bansi in four e.s. 844/9396 share, Malkit
				17	Private	Agriculture	1-4	0.0607	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Singh-Gulzar Singh-Balkar Singh Ss/o Ram Singh S/o Sadhu Ram in three e.s. 211/9396 share, Vashudev-Tilak Raj S/o Gusain Ram in two e.s. 47/174 share, Raj Kumar-Shamsher Singh Ss/o Herkesh S/o Sadhu Ram in two e.s. 211/9396 share
				23	Private	Agriculture	0-8	0.0202	Dalbir Singh-Jagdeep Singh S/o Charan Singh Allies Amrik Singh S/o Mehama Singh two equal shares ¼ share, Nasib Singh-Puran Singh-Balbir Singh S/o Mehama Singh S/o Chadata three equal shares ¾ share R/o Segati
				24	Private	Agriculture	6-4	0.3137	
				25	Private	Agriculture	3-4	0.1619	Assanand S/o Lakha Ram S/o Fateh Chand 94/261 share,
				26//11	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Krishan Lal S/o Jiwan Dass S/o Lakha Ram 106/783 share, Lajja Ram-Hari Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Devidayal in two e.s. 26/261 share, Bachan Singh-Ram Gopal-Singh Ram-Jarnail Singh Ss/o Sadhu Ram S/o Bansi in four e.s. 844/9396 share, Malkit Singh-Gulzar Singh-Balkar Singh Ss/o Ram Singh S/o Sadhu Ram in three e.s. 211/9396 share, Vashudev-Tilak Raj S/o Gusain Ram in two e.s. 47/174 share, Raj Kumar-Shamsher Singh Ss/o Herkesh S/o Sadhu Ram in two e.s. 211/9396 share
				20/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	
				29//3/2	Private	Agriculture	5-6	0.2682	Gurnam Singh-Prem Singh Ss/o Smt. Dashaheri W/o Bishana in two e.s. 2/3 share, Smt. Renu W/o Bhart Bhushan S/o Aasa Nand 1/3 share
				4	Private	Agriculture	5-0	0.2530	Assanand S/o Lakh Ram S/o Fateh Chand
				7	Private	Agriculture	0-9	0.0228	Gurnam Singh-Prem Singh Ss/o Smt. Dashaheri W/o Bishana in two e.s. 2/3 share, Smt. Renu W/o Bhart Bhushan S/o Aasa Nand 1/3 share
				8	Private	Agriculture	6-11	0.3314	
				9	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Ajaib Singh-Satpal Singh-Jaspal Singh S/o Babu Ram S/o Sampuran Singh three equal shares ¾ share, Smt. Amar Kaur Wd/o & jatinder Singh S/o Naib Singh S/o Babu Ram two equal shares ¼ share
				12	Private	Agriculture	5-12	0.2833	
				13	Private	Agriculture	3-2	0.1569	Lajja Ram-Hari Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Devidayal
				18	Private	Agriculture	0-12	0.0304	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									two equal shares
				19	Private	Agriculture	6-5	0.3162	Ajaib Singh-Satpal Singh-Jaspal Singh S/o Babu Ram S/o Sampuran Singh three equal shares $\frac{3}{4}$ share, Smt. Amar Kaur Wd/o & jatinder Singh S/o Naib Singh S/o Babu Ram two equal shares $\frac{1}{4}$ share
				115	Private	Agriculture	0-12	0.0304	Naranjan Singh etc. Owners total 1753 shares
			(10) JansuH. B.No. 308	20//19	Private	Agriculture	1-8	0.0709	Sawaran Singh S/o Sadhu Singh S/o Basawa Singh $\frac{1}{2}$ share, Baldev Singh 587/3840 share, Gain Singh $\frac{1}{6}$ share, Ss/o Charan Singh S/o Sadhu Singh, Smt. Narinder Kaur W/o & Milan Preet Singh S/o Man Singh S/o Charan Singh in two e.s. 176/1280, Smt. Demple W/o Rajesh Kumar S/o Pawan Kumar & Smt. Sushama W/o Umesh Kumar S/o Pawan Kumar in two e.s.55/1280 share
				23//2	Private	Agriculture	4-9	0.2252	Ravinder Kumar-Surinder Kumar-Rajinder Kumar S/o Subhash Chand S/o Ram Lal in three e.s. $\frac{1}{2}$ share, Jiwan Kumar S/o Jagdish Chand S/o Ram Lal $\frac{1}{2}$ share
				9/1	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Ruldha Ram S/o Sadhu Ram S/o Ganga Ram 215/1064 share, Jai Singh S/o Gulab Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Raj Kumar S/o Hukam Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Mam Raj-Gurdev Singh S/o Randhir Singh S/o Ram Lal in two e.s. 107/1064 share, Smt. Baso Devi Wd/o & Gurnam Singh-Jagat Ram-Bhajan Singh-Pawan Kumar S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram in five e.s. 935/7448 share, Santosh Kumar S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 3/532 share, Nachatter Pal S/o Attam Ram S/o Munshi Ram 3/152 share, Shyma Sunder-Ramesh kumar-Suresh Pal-Pawan Kumar-karm Chand S/o & Smt Angrejo Wd/o Sher Singh S/o Shanker Lal in Six e.s. 1263/3724 share, Maya Ram S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Ram Rattan S/o Attam Ram S/o Tulshi Ram 3/152 share, Angrejo Devi Mother of Dharm Chand S/o

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Sher Singh 421/7448 share, Ram karan S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Malkit Singh-Gurmeet Singh S/o Desh Raj S/o Ramanand in two e.s. 3/152 share
				9/2	Private	Agriculture	2-0	0.1012	Ravinder Kumar-Surinder Kumar-Rajinder Kumar S/o Subhash Chand S/o Ram Lal in three e.s. ½ share, Jiwan Kumar S/o Jagdish Chand S/o Ram Lal ½ share
				12	Private	Agriculture	5-0	0.2530	Ruldha Ram S/o Sadhu Ram S/o Ganga Ram 215/1064 share, Jai Singh S/o Gulab Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Raj Kumar S/o Hukam Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Mam Raj-Gurdev Singh S/o Randhir Singh S/o Ram Lal in two e.s. 107/1064 share, Smt. Baso Devi Wd/o & Gurnam Singh-Jagat Ram-Bhajan Singh-Pawan Kumar S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram in five e.s. 935/7448 share, Santosh Kumar S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 3/532 share, Nachatter Pal S/o Attam Ram S/o Munshi Ram 3/152 share, Shyma Sunder-Ramesh kumar-Suresh Pal-Pawan Kumar-karm Chand S/o & Smt Angrejo Wd/o Sher Singh S/o Shanker Lal in Six e.s. 1263/3724 share, Maya Ram S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Ram Rattan S/o Attam Ram S/o Tulshi Ram 3/152 share, Angrejo Devi Mother of Dharm Chand S/o Sher Singh 421/7448 share, Ram karan S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Malkit Singh-Gurmeet Singh S/o Desh Raj S/o Ramanand in two e.s. 3/152 share
				19	Private	Agriculture	2-19	0.1493	Ruldha Ram S/o Sadhu Ram S/o Ganga Ram 215/1064 share, Jai Singh S/o Gulab Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Raj Kumar S/o Hukam Singh S/o Ram Lal 107/2128 share, Mam Raj-Gurdev Singh S/o Randhir Singh S/o Ram Lal in two e.s. 107/1064 share, Smt. Baso Devi Wd/o & Gurnam Singh-Jagat Ram-Bhajan Singh-Pawan Kumar S/o

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Sawan Ram S/o Sadhu Ram in five e.s. 935/7448 share, Santosh Kumar S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 3/532 share, Nachatter Pal S/o Attam Ram S/o Munshi Ram 3/152 share, Shyma Sunder-Ramesh kumar-Suresh Pal-Pawan Kumar-karm Chand S/o & Smt Angrejo Wd/o Sher Singh S/o Shanker Lal in Six e.s. 1263/3724 share, Maya Ram S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Ram Rattan S/o Attam Ram S/o Tulshi Ram 3/152 share, Angrejo Devi Mother of Dharm Chand S/o Sher Singh 421/7448 share, Ram karan S/o Sawan Ram S/o Sadhu Ram 5/931 share, Malkit Singh-Gurmeet Singh S/o Desh Raj S/o Ramanand in two e.s. 3/152 share
				46//10	Private	Agriculture	1-4	0.0607	Haryana Wakf Board in the Colum of Cultivation Sohan Singh-Sant Singh Ss/o Bishan Singh in two e.s. Tanent
				11/1	Private	Agriculture	1-11	0.0784	
				11/2	Private	Agriculture	2-5	0.1138	Smt. Chander kanta 91/2188 share Wd/o & Smt.Anita 73/2188 share D/o Rattan Singh S/o Parsa, Smt. Sushama Wd/o & Akshit Kumar S/o & Smt.Bashakhi D/o Jatender Kumar S/o Rattan in three e.s. 55/2188 share, Puran Singh S/o Parsa S/o Hamira 219/2188 share, Sukhdave Singh S/o parsa S/o Hamira 75/547 share, Karamjeet Singh-Baldev Singh-Sunil Kumar Ss/o Prem Singh S/o Budh Ram in three e.s. 4/547 share, Satish Kumar S/o Puran Singh S/o Parsa 20/547 share, Balkar Singh-Gurcharan Singh Ss/o joginder Singh Ss/o Laxman Singh in Two e.s. 51/1094 share, Mewa Singh-Subhash Kumar Ss/o Shiv Kumar S/o Laxman Dass in two e.s. 51/1094 share, Ram Kumar S/o Mahinder Singh S/o Laxman Dass 7/2188 share, Ashwani Kumar S/o Krishan Kumar S/o Laxman Dass 7/2188
				20	Private	Agriculture	6-12	0.3339	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									share, Santosh Kumar-Pirthy Singh-Ram Karan Ss/o Partapa S/o Hamira in three e.s. 219/2188 share, Gurnam Singh-Chandermuni-Man Singh-Satpal-Mohan Lal Ss/o Sunder S/o Hamira in five e.s. 219/2188 share, Surja S/o Chura S/o Hamira 164/1641 share, Basakhi Ram-Ram Karan-Joginder Singh-Banwari Ss/o & Smt. Manno Devi D/o Shangara S/o Chura in five e.s. 410/4923 share, Balwinder Singh-BalRam Ss/o & Smt. Tripta Devi D/o Man Singh S/o Shangara in three e.s. 82/4923 share, kamal Phool-Gurdayal Singh Ss/o Naranjan Singh S/o Parsa in two e.s. 21/1094 share, Mahinder Singh-Rampal Ss/o Rup Ram S/o Chura 164/1641 share
				47//5	Private	Agriculture	5-10	0.2783	Haryana Wakf Board in the Colum of Cultivation Baljinder Singh-Ranjeet Singh Ss/o Naranjan Singh S/o jai Singh in two e.s. Tanent
				6	Private	Agriculture	6-16	0.3441	
				15/1	Private	Agriculture	2-8	0.1214	
				16	Private	Agriculture	1-14	0.0860	Smt. Chander kanta 91/2188 share Wd/o & Anita 73/2188 share D/o Rattan Singh S/o Parsa, Smt. Sushama Wd/o & Akshit Kumar S/o & Bashakhi D/o Jatinder Kumar S/o Rattan in three e.s. 55/2188 share, Puran Singh S/o Parsa S/o Hamira 219/2188 share, Sukhdave Singh S/o parsia S/o Hamira 75/547 share, Karamjeet Singh-Baldev Singh-Sunil Kumar Ss/o Prem Singh S/o Budh Ram in three e.s. 4/547 share, Satish Kumar S/o Puran Singh S/o Parsa 20/547 share, Balkar Singh-Gurcharan Singh Ss/o joginder Singh Ss/o Laxman Singh in Two e.s. 51/1094 share, Mewa Singh-Subhash Kumar Ss/o Shiv Kumar S/o Laxman Dass in two e.s. 51/1094 share, Ram Kumar S/o Mahinder Singh S/o Laxman Dass 7/2188 share, Ashwani Kumar S/o Krishan Kumar S/o Laxman Dass 7/2188 share,
				67//9/1	Private	Agriculture	0-3	0.0076	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Santosh Kumar-Pirthy Singh-Ram Karan Ss/o Partapa S/o Hamira in three e.s. 219/2188 share, Gurnam Singh-Chandermuni-Man Singh-Satpal-Mohan Lal Ss/o Sunder S/o Hamira in five e.s. 219/2188 share, Surja S/o Chura S/o Hamira 164/1641 share, Basakhi Ram-Ram Karan-Joginder Singh-Banwari Ss/o & Smt. Manno Devi D/o Shangara S/o Chura in five e.s. 410/4923 share, Balwinder Singh-BalRam Ss/o & Smt. Tripta Devi D/o Man Singh S/o Shangara in three e.s. 82/4923 share, kamal Phool-Gurdayal Singh Ss/o Naranjan Singh S/o Parsa in two e.s. 21/1094 share, Mahinder Singh-Rampal Ss/o Rup Ram S/o Chura 164/1641 share
				9/2	Private	Agriculture	3-10	0.1771	Surja S/o Chura S/o Hamira 1/6 share, Basakhi Ram-Ram Karan-Joginder Singh-Banwari Ss/o & Smt. Manno Devi D/o Shangara S/o Chura 5/36 share, Balwinder Singh-Bal Ram Ss/o & Tripta Devi D/o Man Singh S/o Shangara in three e.s. 1/36 share Banarshi Lal S/o Mathura S/o Gorla Ram 1/8 share, Mahinder Singh-RamPal Ss/o Rup Ram S/o Chura in two e.s. 1/6 share, Puran Chand-Rashpal-Somnath-Hemant Kumar Ss/o Ramji Lal S/o Mathura in four e.s. 1/8 share, Gurnam Singh-Kehar Singh-Gian Chand-Joginder Singh Ss/o & Angrejo-Jogindero D/o Sadhu Ram S/o Mathura in Six e.s. 3/28 share, Smt Rattani Wd/o & Prince S/o & Binder Kaur D/o Madan Lal S/o Sadhu Ram in three e.s. 1/56 share, Bhawan dass-Hardev Singh-Chanan Singh-Rambhaj-Mahinder Singh Ss/o & Giano Devi-Roshni Devi D/o Surja Ram S/o Mathura Ram in Seven e.s. 1/8 share,
				12	Private	Agriculture	1-3	0.0581	
			(11) Kaleran H.B. No. 307	47//8	Private	Agriculture	0-7	0.0177	Joginder Singh-Shiv Ram-Mohinder Singh-Krishan Lal Ss/o Laxman Dass S/o Chet Ram in four e.s. ½ share, Rameshwar Dass-Suresh Pal-jasmer Singh
				9	Private	Agriculture	0-9	0.0228	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									Ss/o Mukhtiar Singh S/o Ram Kishan in three e.s. 1/6 share, Kaptan Singh S/o Ram Rattan S/o Ram Kishan 1/6 share, Jasbir Singh-Kapil Dev Ss/o Ram Sarup S/o Ram Kishan in two e.s. 1/6 share,
				12/1	Private	Agriculture	1-9	0.0734	Narnjan Singh-Kapoor Chand Ss/o Munshi Ram S/o Assa Ram in two e.s. 1/3 share, Dhani Ram-Babu Ram Ss/o Sunder Singh S/o Assa Ram in two e.s. 1/3 share, Shivsarjan S/o Munni Lal S/o Sunder Singh 1/12 share, Munni Lal S/o Sunder Singh S/o Assa Ram 1/12 share, Mam Chand-Ram Kumar Ss/o Jeet Singh S/o Kapoor Chand in two e.s. 1/6 share
				12/2	Private	Agriculture	1-4	0.0607	Joginder Singh-Shiv Ram-Mohinder Singh-Krishan Lal Ss/o Laxman Dass S/o Chet Ram in four e.s. 1/2 share, Rameshwar Dass-Suresh Pal-jasmer Singh Ss/o Mukhtiar Singh S/o Ram Kishan in three e.s. 1/6 share, Kaptan Singh S/o Ram Rattan S/o Ram Kishan 1/6 share, Jasbir Singh-Kapil Dev Ss/o Ram Sarup S/o Ram Kishan in two e.s. 1/6 share,
				13	Private	Agriculture	1-0	0.0506	
				63//9	Private	Agriculture	4-0	0.2024	Maya Chand-Ghasi Ram Ss/o Chamela S/o Baru in two e.s. 32/301 share, Tara Chand-Roshan Lal Ss/o & Roshani Devi-Amaro Devi D/o & Smt. Taro Devi Wd/o Chamela in four e.s. 32/301 share, Mam Raj-Hans Raj-Amir Chand-Vazir Chand-Gurmail Singh Ss/o Data Ram in fivr e.s. 30/301 share, Kehar Singh-Ram Sarup-Nirmal Chand Ss/o Barkha Ram S/o jathu Ram in three e.s. 45/602 share, Smt. Salindero Wd/o & Sanjeev Kumar-Sandeep Kumar-Jasbir Singh Ss/o Jarnail Singh S/o Barkha Ram in four e.s. 15/602 share, Raj Singh-Nar Singh Ss/o Raja Ram S/o Baru in two e.s. 170/903 share, Sukhdev Singh S/o Paras Ram S/o Hamira 40/301 share, Kamal Phool-Gurdayal Ss/o Naranjan Singh S/o Paras Ram in two e.s. 50/903 share, Surjit Singh S/o Kapuria
				12	Private	Agriculture	3-12	0.1822	

Sr. no	Name of district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey number	Type of land	Nature of Land	Area		Name of Land Owners /Interested Persons
							K-M	Hact ares	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
									S/o Baru 191/903 share
				13	Private	Agriculture	0-3	0.0076	Rameshwar Dass S/o Babu Ram
				18/1	Private	Agriculture	0-1	0.0025	S/o Anant Ram ¼ share, Anil Kumar S/o jai mal S/o Babu Ram ¼ share, Dhani Ram S/o Anant Ram S/o Chotu Ram ½ share,
				18/2	Private	Agriculture	1-6	0.0658	Bashakhi Ram-Raj Kumar-Rameshwar Ss/o Ram Chand S/o Puran Chand in three e.s. ¾ share, Smt. Ramkali W/o Dhani Ram S/o Anant Ram ¼ share,
				19	Private	Agriculture	3-6	0.1670	Maya Chand-Ghasi Ram Ss/o Chamela S/o Baru in two e.s. 32/301 share, Tara Chand-Roshan Lal Ss/o & Roshani Devi-Amaro Devi D/o & Smt. Taro Devi Wd/o Chamela in four e.s. 32/301 share, Mam Raj-Hans Raj-Amir Chand-Vazir Chand-Gurmail Singh Ss/o Data Ram in fivr e.s. 30/301 share, Kehar Singh-Ram Sarup-Nirmal Chand Ss/o Barkha Ram S/o jathu Ram in three e.s. 45/602 share, Smt. Salindero Wd/o & Sanjeev Kumar-Sandeep Kumar-Jasbir Singh Ss/o Jarnail Singh S/o Barkha Ram in four e.s. 15/602 share, Raj Singh-Nar Singh Ss/o Raja Ram S/o Baru in two e.s. 170/903 share, Sukhdev Singh S/o Paras Ram S/o Hamira 40/301 share, Kamal Phool-Gurdayal Ss/o Naranjan Singh S/o Paras Ram in two e.s. 50/903 share, Surjit Singh S/o Kapuria S/o Baru 191/903 share
				22	Private	Agriculture	0-11	0.0278	
				23	Private	Agriculture	0-13	0.0329	Bashakhi Ram-Raj Kumar-Rameshwar Ss/o Ram Chand S/o Puran Chand in three e.s. ¾ share, Smt. Ramkali W/o Dhani Ram S/o Anant Ram ¼ share,
						Total	681-9	34.4544	

[File No. NHAI/22052/2013-14/Haryana/Ambala]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.